

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2017—माघ 28, शक 1938

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 2063-जि.श.वि.अ.-2017.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर, जिला धार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नगर परिषद् डही, जिला धार के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूं :—

:-अनुसूची:-

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
1.	वार्ड क्रमांक 1-पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड	9.	वार्ड क्रमांक 9-केलियाकुआँ एवं जमरापुरा वार्ड
2.	वार्ड क्रमांक 2-भगतसिंह वार्ड	10.	वार्ड क्रमांक 10-सुराणी फल्या वार्ड
3.	वार्ड क्रमांक 3-कबीर वार्ड	11.	वार्ड क्रमांक 11-सुराणी फल्या इंदिरा कॉलानी वार्ड
4.	वार्ड क्रमांक 4-डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड	12.	वार्ड क्रमांक 12-घोडापाटी वार्ड
5.	वार्ड क्रमांक 5-मोलाना आजाद वार्ड	13.	वार्ड क्रमांक 13-महात्मा गाँधी वार्ड
6.	वार्ड क्रमांक 6-रैदास वार्ड	14.	वार्ड क्रमांक 14-दशरखेडा वार्ड
7.	वार्ड क्रमांक 7-सदर बाजार पंडित दिनदयाल वार्ड	15.	वार्ड क्रमांक 15-पटेलपुरा वार्ड
8.	वार्ड क्रमांक 8-सदर बाजार एवं सोनी मोहल्ला चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		

(वार्डों की चतुर्सीमा)

वार्ड क्रमांक 1-पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड

- उत्तर में :- ग्राम पंचायत चाकल्या का सीमा क्षेत्र
पूर्व में :- छात्रावास परिसर रोड़
दक्षिण में :- वार्ड क्र. 06, 02 व 05 का सीमा क्षेत्र
पश्चिम में :- ग्राम पंचायत टेमरिया का सीमा क्षेत्र

मकान नं 1 से 56 तक पिरला नरगौवा के घर से सजन नारायण के घर तक, मकान नं. 57 से 87 तक खुमसिंह भुवान के मकान से यूनूस अलि के मकान तक, मकान नं. 132 से मकान नं. 29 तक मो. अब्दुल रहमान के मकान से भोलाराम देवीचन्द्र के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 2-भगतसिंह वार्ड

- उत्तर में :- बोहरा मस्जिद की सीमा
पूर्व में :- वार्ड क्र. 03 का सीमा क्षेत्र
दक्षिण में :- वार्ड क्र. 05 व 06 का सीमा क्षेत्र
पश्चिम में :- अराडा रोड़

मकान नं. 02 से 86 तक आबिद सेठ के मकान से हुसैन भाई के मकान तक, मकान नं. 87 से मकान नं. 102 तक अमजद मकरानी के मकान से दलासिंह हरसिंह के मकान तक.

		वार्ड क्रमांक 3—कबीर वार्ड
उत्तर में	:-	डही अराड़ा रोड़ छेंडिया सीमा क्षेत्र
पूर्व में	:-	वार्ड क्र. 04 का सीमा क्षेत्र
दक्षिण में	:-	अलीराजपुर कुक्षी मार्ग
पश्चिम में	:-	वार्ड क्र. 02 व 05 का सीमा क्षेत्र

मकान नं 02 से मकान नं. 23 तक कमलसिंह के मकान से शेखरचंद्र राजनाथ के मकान तक, मकान नं. 26 से मकान नं. 64 तक बहादुर वर्मा के मकान से शैलेन्द्र राठौड़ के मकान तक, मकान नं. 67/1 से मकान नं. 92 तक जेबुन निशा के मकान से जगदीश यादव के मकान तक.

		वार्ड क्रमांक 4—डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
उत्तर में	:-	छेंडिया ग्राम सीमा क्षेत्र
पूर्व में	:-	ग्राम पंचायत भगावा की सीमा क्षेत्र
दक्षिण में	:-	वार्ड क्र. 10 का सीमा क्षेत्र
पश्चिम में	:-	वार्ड क्र. 3 का सीमा क्षेत्र

मकान नं. 02/2 से 44 तक शेखर सोलंकी के मकान से ताहीर रईस अली के मकान तक, मकान नं. 50 से 70 तक सज्जनसिंह के मकान से औंकार लाल जोगडीया के मकान तक.

		वार्ड क्रमांक 5—मौलाना आजाद वार्ड
उत्तर में	:-	वार्ड क्र. 02, 06 का सीमा क्षेत्र
पूर्व में	:-	वार्ड क्र. 03 को सीमा क्षेत्र
दक्षिण में	:-	वार्ड क्र. 07 का सीमा क्षेत्र
पश्चिम में	:-	वार्ड क्र. 06 का सीमा क्षेत्र

मकान नं. 17 से 70 तक रसूल बोहरा के मकान से राजेन्द्र सोलंकी के मकान तक, मकान नं. 05 से 28/28 धन्नाला वाणी के मकान से अफजल खान के मकान तक मकान नं. 29/29 से 55/55/2 अकबर रसूल अली के मकान से रियाज मो. के मकान तक 55/55/3 से 30/1 तक, मकान हाजी मो. पिता ताज मो. से वाहिद शाह के मकान तक.

		वार्ड क्रमांक 6—रैदास वार्ड
उत्तर में	:-	वार्ड क्र. 01 का सीमा क्षेत्र
पूर्व में	:-	वार्ड क्र. 05 व 02 का सीमा क्षेत्र
दक्षिण में	:-	वार्ड क्र. 12 का सीमा क्षेत्र
पश्चिम में	:-	ग्राम पंचायत टेमरिया का सीमा क्षेत्र

मकान नं. 135 से 154 तक चन्द्रशेखर के मकान से सुरसिंह पिता जेहला के मकान तक, मकान नं. 01 से 15 तक शान्ति बाई के मकान से सलीम खान के मकान तक, मकान नं. 72 से 109 तक, शमसेर खान के मकान से कासम अली के मकान तक, मकान नं. 11/1 से 143 तक, घनश्याम राठौर के मकान से कालु सिंह पिता रेसला के मकान तक.

		वार्ड क्रमांक 7—सदर बाजार पंडित दिनदयाल वार्ड
उत्तर में	:-	वार्ड क्र. 05 व 02 का सीमा क्षेत्र
पूर्व में	:-	वार्ड क्र. 08 का सीमा क्षेत्र
दक्षिण में	:-	वार्ड क्र. 13 का सीमा क्षेत्र

पश्चिम में :- वार्ड क्र. 06 का सीमा क्षेत्र

मकान नं. 01 से 39 तक, सरदारसिंह सोलंकी के मकान से सफी के मकान तक, मकान नं. 88/1 से 127 सोकत अली के मकान से नन्दराम प्रजापत के मकान तक, मकान नं. 04 से 08 तक मगनलाल राठौर से जगदीश दीक्षित के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 8—सदर बाजार एवं सोनी मोहल्ला चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर में :- वार्ड क्र. 03 व 05 का सीमा क्षेत्र

पूर्व में :- वार्ड क्र. 07 का सीमा क्षेत्र

दक्षिण में :- वार्ड क्र. 14, 13 का सीमा क्षेत्र

पश्चिम में :- वार्ड क्र. 04 व 10 का सीमा क्षेत्र

मकान नं. 40 से 63 तक मोहन चौहान के मकान से प्यारचन्द के मकान तक, मकान नं. 65/5 से 87 तक राजाराम पिता रामचन्द्र के मकान से बंशीलाल सेन के मकान तक, मकान नं. 45 से 89 सीताराम प्रजापत के मकान से शांतीलाल जी के मकान तक, भायसिंह सस्तया के मकान से बद्रीलाल पंचोटिया के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 9—केलियाकुआँ एवं जमरापुरा वार्ड

उत्तर में :- वार्ड क्र. 12 का सीमा क्षेत्र

पूर्व में :- वार्ड क्र. 15 व 13 का सीमा क्षेत्र

दक्षिण में :- ग्राम पंचायत पिपलुद का सीमा क्षेत्र

पश्चिम में :- ग्राम पंचायत टेमरिया का सीमा क्षेत्र

मकान नं. 01 से 70 तक भारतसिंह सोलंकी के मकान से जुवानसिंह पिता कासम के मकान तक, मकान नं. 71 से 88.88/1 सेवला डावर के मकान से जुवानसिंह के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 10—सुराणी फल्या वार्ड

दक्षिण में :- ग्राम उम्मेदपुरा का सीमा क्षेत्र

पश्चिम में :- ग्राम पंचायत सिद्दी का सीमा क्षेत्र

दक्षिण में :- वार्ड क्र. 11 का सीमा क्षेत्र

पश्चिम में :- वार्ड क्र. 14 का सीमा क्षेत्र

मकान नं. 01 से 55.55/1 तक मोकम सिंह डोडवा के मकान से नजया डावर के मकान तक, मकान नं. 56.56 से 116.16 तक अगरसिंह डावर के मकान से दयाराम सस्तया के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 11—सुराणी फल्या इंदिरा कॉलानी वार्ड

उत्तर में :- वार्ड क्र. 10 का सीमा क्षेत्र

पूर्व में :- धरमराय रोड़

दक्षिण में :- ग्राम पंचायत पिपलुद का सीमा क्षेत्र

पश्चिम में :- वार्ड क्र. 15 का सीमा क्षेत्र

मकान सुक़ला बघेल के मकान से सयदाम कनास्या के मकान तक, शंकर जमरा के मकान से गिरला पिता विरभान के मकान तक, मकान नं. 66 से कासम मंडलोई के मकान से बडदा निंगवाल के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 12—घोडापाटी वार्ड

उत्तर में :- वार्ड क्र. 06 का सीमा क्षेत्र

पूर्व में :- वार्ड क्र. 13 का सीमा क्षेत्र

दक्षिण में :- वार्ड क्र. 09 का सीमा क्षेत्र

पश्चिम में :- ग्राम पंचायत टेमरिया का सीमा क्षेत्र

मकान नं. 01 से 69 तक गंगा बाई पुरोहित के मकान से सुरसिंह तडवाल के मकान तक, मकान नं. 72 से 110 तक, देवा मकवाना से रामेश्वर राठौर के मकान तक मकान नं. 111 महादेव पाटीदार के मकान से सुभान सिंह कन्नौज के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 13—महात्मा गाँधी वार्ड

- उत्तर में :- वार्ड क्र. 07 का सीमा क्षेत्र
पूर्व में :- वार्ड क्र. 08 का सीमा क्षेत्र
दक्षिण में :- वार्ड क्र. 09 व 15 का सीमा क्षेत्र
पश्चिम में :- वार्ड क्र. 12 का सीमा क्षेत्र

बलवंत सिंह अलावा के मकान से कोमल सिंह कुशवाह के मकान तक, जुवानसिंह सोलंकी मकान से गोपाल सिंह मण्डलोई के मकान तक, मकान नं. 11/1 से 44 तक विरेन्द्र सोनी के मकान से जयन्तीलाल के मकान तक मकान नं. 08 से 102/2 तक शांतीलाल सोनी के मकान से हबीब खॉं चाचा के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 14—दशरखेडा वार्ड

- उत्तर में :- वार्ड क्र. 08 का सीमा क्षेत्र
पूर्व में :- वार्ड क्र. 10 का सीमा क्षेत्र
दक्षिण में :- वार्ड क्र. 15 का सीमा क्षेत्र
पश्चिम में :- धरमराय रोड

मकान नं. 01 से गलसिंह डावर रियाजू हक खान पठान के मकान तक, दलसिंह भाभर के मकान से भायसिंह सस्त्या के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 15—पटेलपुरा वार्ड

- उत्तर में :- वार्ड क्र. 13 का सीमा क्षेत्र
पूर्व में :- वार्ड क्र. 14 का सीमा क्षेत्र
दक्षिण में :- ग्राम पंचायत पिपलुद का सीमा क्षेत्र
पश्चिम में :- वार्ड क्र. 11 का सीमा क्षेत्र

मकान नं. 01 विनोद सस्त्या के मकान से अजय चौगड के मकान तक वालसिंह कनास्या के मकान से सन्तोष कनास्या के मकान तक, राधेश्याम सस्त्या के मकान से किशोर सस्त्या के मकान तक मकान नं. 88.88/2 से 106 तक, कालुसिंह जमरा के मकान से सारली बाई नहारसिंह के मकान तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

धार, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 2064-परिसीमन-धार-2017.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2063-परिसीमन-धार-2017, दिनांक 13 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

Bhopal, the 13th February, 2017

No. 2063.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Parishad Dahi as per Schedule given below :—

SCHEDULE

Serial no. of wards and their names:

Ward No.	Name of ward	Ward No.	Name of ward
1.	Pandit Jawahar Lal Nehru Ward	9.	Kailyakuwa and Jamrapura Ward
2.	Bhagat singh Ward	10.	Surani Faliya Ward
3.	Kabir Ward	11.	Surani Faliya Indira Colony Ward
4.	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward	12.	Ghodapati Ward
5.	Maulana Azad Ward	13.	Mahatma Gandhi Ward
6.	Raidas Ward	14.	Dasharkheda Ward
7.	Sadar Bazar Pandit Dindayal Ward	15.	Patelpura Ward
8.	Sadar Bazar and Soni mohalla Chandra Shekhar Azad Ward		

Ward NO. :- 01, Pandit Jawahar Lal Nehru Ward

- In The North :- Boundary area of the Gram panchayat Chaklya
- In The East :- Road of Boys hostel complex
- In The South :- Boundary area of Ward no. 06, 02 and 05
- In The West :- Boundary area of the Gram panchayat Temriya

House No. 1 to 56 , Pirla Nargawa's house to Sajan Narayan's House, House No. 57 to 87 , Khumansingh Bhuvan Singh's house to Younis Ali's House, House No.132 to 29 - Mohammad Rehman's house to Bholaram Devichandra's house

Ward NO. :- 02, Bhagat singh Ward

- In The North :- Boundary of the Bohara Maszid
- In The East :- Boundary of Ward no. 03
- In The South :- Boundary area of Ward no. 05 and 06
- In The West :- Arada Road

House No. 2 to 86 , Aabid's house to Hussain Bhai's House, House No.87to 102 ,Amjad Makrani's house to Dalsingh Harsingh's House

Ward NO. :- 03, Kabir Ward

- In The North :- Boundary area of Chendiya , Dahi - Arada road
- In The East :- Boundary of Ward no. 04
- In The South :- Alirajpur-Kukshi Road
- In The West :- Boundary area of Ward no. 02 and 05

House No. 2 to 23 , Kamal singh's house to Shekharchandra Rajnaath's House, House No.26 to 64 , Bahadur Verma's house to Shailendra Rathores's House, House No.67/1 to 92 , Zaibunisha's house to Jagdish Yadav's House

Ward NO. :- 04, Dr. Bhimrao Ambedkar Ward

- In The North :- Boundary of the Gram panchayat Chendiya
 In The East :- Boundary of the Gram panchayat Bhagawa
 In The South :- Boundary area of Ward no.10
 In The West :- Boundary area of Ward no.03

House No. 02/2 to 44 , Shekhar Solanki's house to Taahir Raees Ali's House, House No.50 to 70 , Sajjan Singh's house to Onkarlal Jangadiya's House

Ward NO. :- 05, Maulana Azad Ward

- In The North :- Boundary area of Ward no. 02 and 06
 In The East :- Boundary area of Ward no.03
 In The South :- Boundary area of Ward no.07
 In The West :- Boundary area of Ward no.06

House No. 17to 70 ,Rasool Bohara's house to Rajendra Solanki's House, House No.05 to 28/28 , Dhanna lal vani's house to Afzal Khan's House, House No.29/29 to 55/55/2 , Akbar Rasool Ali's house to Riyaz Mohammad's house , House No.55/55/3 to 30/1, Hazi Mohammad's House to Vaahid Shah's house.

Ward NO. :- 06, Raidas Ward

- In The North :- Boundary area of Ward no.01
 In The East :- Boundary area of Ward no.02 and 05
 In The South :- Boundary area of Ward no.12
 In The West :- Boundary area of the Gram panchayat Temriya

House No.135to 154 , chandrshekhar's house to Sursingh s/o Jehla's House, House No.01 to 15 , Shantibai's house to Salim Khan's House, House No.72 to 109 , Shamsher Khan's house to Kasam Ali's house , House No.11/1 to 143,Ghanshyam Rathore's House to Kaalu singh s/o Resala's house.

Ward NO. :- 07, Sadar Bazar Pandit Dindayal Ward

- In The North :- Boundary area of Ward no.02 and 05
 In The East :- Boundary area of Ward no.08
 In The South :- Boundary area of Ward no.13
 In The West :- Boundary area of Ward no.06

House No.01 to 39 , Sardar singh Solanki's house to Safi's House, House No88/1 to 127 ,Saukat Ali's house to Nandram Prajapat's House, House No.04 to 08 ,Magan lal Rathore's house to jagdish Dixit's House

Ward NO. :- 08, Sadar Bazar and Soni mohalla Chandra Shekhar Azad Ward

- In The North :- Boundary area of Ward no.03 and 05
 In The East :- Boundary area of Ward no.07
 In The South :- Boundary area of Ward no.13 and 14
 In The West :- Boundary area of Ward no.04 and 10

House No.40 to 63 , Mohan Chauhan's house to Pyarchand's House, House No. 65/5 to 87 ,Rajaram S/o Ramchandra's house to Bansilal sen's House, House No.45 to 89 , Sitaram Prajapat's house to Shantilalji's House, Bhaisingh Sastya's House to Badrilal Panchotiys's house.

Ward NO. :- 09, Kailyakuwa and Jamrapura Ward

- In The North :- Boundary area of Ward no.12
 In The East :- Boundary area of Ward no.13 and 15
 In The South :- Boundary area of the Gram panchayat Piplud
 In The West :- Boundary area of the Gram panchayat Temriya

House No.01 to 70 , Bharat singh Solanki's house to Juwansingh s/o Kaasam's House, House No. 71 to 88,88/1 , Sewala Dawar's house to Juwansingh's House.

Ward NO. :- 10, Surani Faliya Ward

- In The North :- Boundary area of the Gram panchayat Ummedpura
 In The East :- Boundary area of the Gram panchayat Sidadi

In The South :- Boundary area of Ward no. 11

In The West :- Boundary area of Ward no. 14

House No.01 to 55,55/1 ,Mokam Singh Dodwa's house to Najiya Dawar's House, House No.56.56 to 116.16 , Agar singh Dawar's house to Dayaram sastya's House.

Ward NO. :- 11, Surani Faliya Indira Colony Ward

In The North :- Boundary area of Ward no. 10

In The East :- Dharamrai Road

In The South :- Boundary area of the Gram panchayat Piplud

In The West :- Boundary area of Ward no. 15

Shukla Baghel's house to Saydam Kanasiya's House, Shankar Jamra's house to Girla s/o Virbhan's House. House No.66 , Kaasam Mandloi's house to Badada Ningwal's house

Ward NO. :- 12, Ghodapati Ward

In The North :- Boundary area of Ward no. 06

In The East :- Boundary area of Ward no. 13

In The South :- Boundary area of Ward no. 09

In The West :- Boundary area of the Gram panchayat Temriya

House No.01 to 69 ,Ganga Bai Purohit's house to Sursingh Tadwal's House, House No.72 to 110 , Deva Makwana's house to Rameshwar Rathore's House. House No.111 , Mahadev Patidar's house to Shubhansingh Kannoji's house

Ward NO. :- 13, Mahatma Gandhi Ward

In The North :- Boundary area of Ward no. 07

In The East :- Boundary area of Ward no. 08

In The South :- Boundary area of Ward no. 09 and 15

In The West :- Boundary area of Ward no. 12

Balwant singh Alawa's house to Komal Singh Kushwah's House, Juwansingh solanki's house to Gopalsingh Mandloi's House. House No.11/1 to 44 , Virendra Soni's house to Jayantilal's house. House no 08 to 102/2, Shantilal Soni's House to Habib Khan Chacha's house.

Ward NO. :- 14, Dasharkheda Ward

- In The North :- Boundary area of Ward no. 08
 In The East :- Boundary area of Ward no. 10
 In The South :- Boundary area of Ward no.15
 In The West :- Dharamrai Road

House no. 01 to Galsingh Dawar's house to Riyaz ulhaq pathan's House, Dalsingh Bhabhar's house to Bhai Singh Sastya's House.

Ward NO. :- 15, Patelpura Ward

- In The North :- Boundary area of Ward no. 13
 In The East :- Boundary area of Ward no.14
 In The South :- Boundary area of the Gram panchayat Piplud
 In The West :- Boundary area of Ward no.11

House no. 01 Vinod Sastya's house to Ajay Chonghad's House, Valsingh Kanasiya's house to Santosh Kanasiya's House. Radheshyam Sastya's house to Kishore Sastya's house. House no 88,88/2 to 106, Kalu singh Jamra's House to Saarli Bai w/o Naharsingh's house.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 SHRIMAN-SHUKLA, Collector.

धार, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 2067-जि.श.वि.अ.-2017.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर, जिला धार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नगर परिषद् धामनोद, जिला धार के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :—

:-अनुसूची:-

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
1.	वार्ड क्रमांक 01 इन्दिरा गांधी वार्ड	9.	वार्ड क्रमांक 09 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2.	वार्ड क्रमांक 02 हनुमान वार्ड	10.	वार्ड क्रमांक 10 डॉ.मुखर्जी वार्ड
3.	वार्ड क्रमांक 03 वीर सावरकर वार्ड	11.	वार्ड क्रमांक 11 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
4.	वार्ड क्रमांक 04 देवी अहिल्या बाई वार्ड	12.	वार्ड क्रमांक 12 जवाहरलाल नेहरू वार्ड
5.	वार्ड क्रमांक 05 संजय गांधी वार्ड	13.	वार्ड क्रमांक 13 महात्मागांधी वार्ड
6.	वार्ड क्रमांक 06 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	14.	वार्ड क्रमांक 14 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
7.	वार्ड क्रमांक 07 लोकमान्य तिलक वार्ड	15.	वार्ड क्रमांक 15 राजीव गाँधी वार्ड
8.	वार्ड क्रमांक 08 शहीद भगतसिंह वार्ड		

(वार्डों की चतुर्सीमा)

वार्ड क्रमांक 01 इन्दिरा गांधी वार्ड

- उत्तर :- बाम्बे आगरा रोड़ गुलझरा पुल के पास से पूर्व कि ओर बढ़ते हुए नगर परिषद की उत्तरी सीमा बुटीनाला के किनारे -किनारे नगर परिषद कि पूर्वी सीमा तक ।
- पूर्व :- पलासीया रोड़ से नगर परिषद कि पूर्वी सीमा के किनारे - किनारे के मकान दक्षिण साईड का खेमा के मकान तक ।
- दक्षिण :- पलासीया रोड़ खेमा के मकान से पूर्व कि ओर बढ़ते हुए मुहाड़िया नाले तक ।
- पश्चिम :- नगर पंचायत कि उत्तरी सीमा गुलझरा पुल से दक्षिण कि ओर बढ़ते हुए ए.बी.रोड़ के समस्त भवन सुरेश जैन के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 02 हनुमान वार्ड

- उत्तर :- ए.बी.रोड से श्रीनाथ जिनिंग को लेते हुए पश्चिम कि ओर बढ़ते हुए बुटी नाले के किनारे - किनारे नगर परिषद कि पश्चिमी सीमा तक ।
- पूर्व :- मंडी गेट के पूर्वी हिस्से आगे बढ़ते हुए ए.बी.रोड बाबुसेठ कि होटल तक एवं आगे नारायण बिहार कॉलोनी के समस्त मकान एवं मोती गुमान के मकान से आगे तक लालवाड़ी एवं ए.बी.रोड से उत्तरी सीमा बुटी नाले तक ।
- दक्षिण :- वार्ड क्रमांक 02 कि पूर्वी सीमा से पश्चिम कि ओर बढ़ते हुए बुटी नाली की सीमा से रवि कॉटन एवं बस्ती के समस्त मकान पूर्व दिशा की ओर मण्डी रोड के दक्षिण दिशा के मकान से पूर्व की ओर बढ़ते हुए कन्हैयालाल आगीवाल के मकान तक ।
- पश्चिम :- नगर परिषद कि पश्चिम सीमा बुटी नाले के किनारे उत्तर कि ओर बढ़ते हुए नगर परिषद कि उत्तरी सीमा तक ।

वार्ड क्रमांक 03 वीर सावरकर नगर वार्ड

- उत्तर :- नगर के पूर्वी किनारे से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अशोक भाई मेनेजर के आगे से बढ़ते हुए ए.बी रोड तक ।
- पूर्व :- अजय पाटीदार के मकाने से आगे जगदीश भाई पाटीदार के मकान तक श्री राम शर्मा के मकान आगे पूर्व की ओर ओम सुल्तानेकर के मकान तक दक्षिण साईड कैलाश शर्मा के मकान से आगे बढ़ते हुए वार्ड क्रमांक 3 की उत्तरी सीमा तक ।
- दक्षिण :- महेश्वर रोड नेमीचंद जैन के मकान से पूर्व कि ओर बढ़ते हुए कुम्हार गड्डा के श्याम मराठा के मकान तक ।
- पश्चिम :- ए.बी.रोड नरेन्द्र जैन के मकान से दक्षिण कि ओर मंगल नगर के समस्त मकान आगे बढ़ते हुए महेश्वर चौराहे तक ।

वार्ड क्रमांक 04 देवी अहिल्या बाई वार्ड

- उत्तर :- श्रवण यादव इन्दिरा नगर से आगे बढ़ते हुए पलास्या रोड के दक्षिण साईड के समस्त मकान से कमल यादव के मकान तक ।
- पूर्व :- भूरेसिंह चौहान इन्दिरा के मकान तेजाजी मंदिर उत्तर की ओर आगे बढ़ते दिनेश कर्मा के मकान तक ।

दक्षिण :- नगर की पूर्वी सीमा तेजाजी मंदिर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए समस्त मकान से वार्ड क्रमांक 3 की पूर्वी सीमा तक ।

पश्चिम :- कमल यादव के मकान से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए मांगीलाल आमदाबादी के मकान से पूर्व की ओर बढ़ते हुए देवकरण नेताजी के मकान से आगे बढ़ते हुए वार्ड क्रमांक 3 की उत्तरी सीमा तक ।

वार्ड क्रमांक 05 संजय गांधी वार्ड

उत्तर :- नगर परिषद की पूर्वी सीमा से पश्चिम की ओर वार्ड क्रमांक 04 की सीमा तक के समस्त मकान तक ।

पूर्व :- वन विभाग उत्तर की ओर बढ़ते हुए नर्मदा डिग्री कालेज आगे कृषि भूमि से उत्तरी सीमा तक ।

दक्षिण :- जायसवाल के मकान महेश्वर रोड से पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए महेश्वर रोड के उत्तरी सीमा के समस्त भवन से आगे बढ़ते हुए वन विभाग कार्यालय तक ।

पश्चिम :- कुम्हार गड्डा अशोक बलाई के मकान से उत्तरी सीमा के समस्त भवन आगे बढ़ते हुए वार्ड क्र. 3 की दक्षिणी सीमा तक ।

वार्ड क्रमांक 06 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर :- महावीरसिंह के मकान से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए समस्त भवन एवं पूर्व की ओर बढ़ते हुए संजय नगर के समस्त भवन तक ।

पूर्व :- महेश्वर रोड पुलिया के आगे उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए समस्त भवन फुन्दू मोहम्मद मस्जिद वाली गली के मकान तक ।

दक्षिण :- वन विभाग से पूर्व की ओर बढ़ते महेश्वर रोड के समस्त मकान पुलिया तक ।

पश्चिम :- पुलिया से आगे उत्तरी सीमा के समस्त मकान फॉरेस्ट मकान मुहाड़िया उत्तर साईड सरस्वती शिशु मंदिर से आगे तक के समस्त मकान ।

वार्ड क्रमांक 07 लोकमान्य तिलक वार्ड

उत्तर :- दिन मोहम्मद पोमड़िया मस्जिद वाली गली संजय नगर मकान से पूर्वी सीमा की ओर बढ़ते हुए समस्त भवन ।

पूर्व :- उत्तरी सीमा से बढ़ते हुए दक्षिण की ओर के समस्त भवन महाविद्यालय महेश्वर रोड से दक्षिण दिशा के समस्त भवन ।

दक्षिण :- हाउसिंग बोर्ड कालोनी के समस्त मकान, शासकीय पटवारी आवास से आगे पूर्वी सीमा के समस्त भवन ।

पश्चिम :- मस्जिद वाली गली से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए महेश्वर रोड सुचित्रा नगर प्रीति नगर के समस्त भवन हाउसिंग बोर्ड से दक्षिणी सीमा तक ।

वार्ड क्रमांक 08 शहीद भगतसिंह वार्ड

उत्तर :- महेश्वर रोड गेंदालाल साधव के मकान से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आशीर्वाद नगर ओंकार कालोनी के समस्त भवन से ए.बी. रोड तक ।

पूर्व :- संतोष राठौड़ हाउसिंग बोर्ड कालोनी के मकान से पूर्व दिशा बयड़ी के समस्त भवन से आगे बढ़ते हुए तायल कालोनी के समस्त मकान से महेश्वर रोड तक ।

दक्षिण :- नगर की पूर्वी सीमा से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मुहाड़िया रोड से पश्चिम सीमा तक ।

पश्चिम :- महेश्वर चौराह ए.बी.रोड से आगे बढ़ते हुए पूर्व साईड के समस्त भवन दुकानो से शासकीय हास्पिटल तक ।

वार्ड क्रमांक 09 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

उत्तर :- ए.बी.रोड हरिहर जिनिंग के मकान से पूर्व कि ओर वार्ड क्रमांक 8 दक्षिण सीमा के साथ चलते हुए नगर परिषद की पूर्वी सीमा तक ।

पूर्व :- नगर परिषद की पूर्वी सीमा से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वार्ड क्रमांक 13 की सीमा तक ।

दक्षिण :- ए.बी.रोड जैन हास्पिटल से आगे दहिवर मार्ग पर बढ़ते हुए नहर को पार करते हुए नगर परिषद कि पूर्वी सीमा तक ।

पश्चिम :- ए.बी.रोड हरिहर जिनिंग के मकान से दक्षिण कि ओर बढ़ते हुए जैन हास्पिटल तक एवं दक्षिण दिशा कि ओर से ओम चौधरी के मकान तक । पूर्व कि ओर दहिवर मार्ग कि ओर कन्या स्कूल के पिछे पूनम भाई टोपी की गली तक । राजेश पाटीदार के मकान तक । एवं बालाजी मंदिर कि गली के उत्तर साईड से पूर्व कि ओर कमलेश गौड़ के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 10 डॉ.मुखर्जी वार्ड

- उत्तर :- मंडी रोड रमेशचंद जैन के मकान से पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए नगर पालिका कॉम्प्लेक्स ए.बी रोड तक ।
- पूर्व :- ए.बी.रोड महेश्वर चौराहे से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए नई आबादी शिव नगर कालोनी सती विहार कालोनी मुक्तानंद परिसर के समस्त भवन से नई आबादी के बिहारी डोंगले के मकान तक ।
- दक्षिण :- नई आबादी की पूर्वी सीमा से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मुक्तानंद परिसर के समस्त भवनो से बुटी नाला क्षेत्र तक ।
- पश्चिम :- नगर परिषद कि पश्चिम सीमा बुटीनाले के किनारे — किनारे उत्तर कि ओर वार्ड क्रमांक 2 की दक्षिणी सीमा तक ।

वार्ड क्रमांक 11 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

- उत्तर :- जयंत डोगले नई आबादी पिछे की गली आगे की ओर बढ़ते हुए दक्षिण तरफ पटेल कालोनी के समस्त भवन से आगे बढ़ते वार्ड क्रमांक 10 की सीमा तक ।
- पूर्व :- जयंतीलाल डोगले के कॉम्प्लेक्स के पिछे की गली से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बस स्टेशन को लेते हुए नाई सेरी के समस्त भवन अजगर बोहरा के मकान से आगे हरि मुंदड़ा ए.बी. रोड के मकान तक ।
- दक्षिण :- ए.बी रोड के अन्दर जवाहर मार्ग उत्तरी दिशा के समस्त भवन गणेश मंदिर से आगे बढ़ते हुए बकोरिया सेरी के समस्त भवन से होते हुए बावडी सेरी सती गोया राम मंदिर से पूर्व की ओर बढ़ते हुए दक्षिण दिशा के समस्त भवन हताई मोहल्ला के पश्चिम दिशा के समस्त भवन से आगे बढ़ते हुए पूर्व की ओर केशरबाई कहार के मकान तक ।
- पश्चिम :- नगर परिषद की पश्चिमी सीमा बुटी नाले के किनारे — किनारे उत्तर की ओर वार्ड क्रमांक 10 की सीमा तक ।

वार्ड क्रमांक 12 जवाहर लाला नेहरू वार्ड

- उत्तर :- जवाहर मार्ग मांगीलाल राठौड़ के मकान से पूर्व की ओर बढ़ते हुए जयनारायण मलतारे फोटो फ्रेमींग मकान तक ।
- पूर्व :- ए.बी. रोड फोटो फ्रेमींग दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सुन्देल फाटे तक के समस्त भवन ।

दक्षिण :- सुन्द्रेल रोड से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अम्बिका हायर सेकेण्डरी स्कूल तक के समस्त भवन ।

पश्चिम :- देवराम गुजराती के खलीहान से आगे बढ़ते हुए पूर्वी सीमा से लगा हुए वार्ड क्रमांक 11 तक ।

वार्ड क्रमांक 13 महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर :- नगर परिषद कि पूर्वी सीमा से दक्षिण कि ओर वार्ड क्रमांक 14 कि सीमा तक ।

पूर्व :- ए.बी.रोड बालाजी मंदिर से आगे दक्षिण कि ओर हुकुम भाई पाण के मकान तक ।

दक्षिण :- सुनिल शर्मा के मकान से दक्षिण से पूर्व कि ओर नगर परिषद कि पूर्वी सीमा तक ।

पश्चिम :- बालाजी मंदिर कि गली दक्षिण कि ओर से आगे बढ़ते हुए वार्ड क्रमांक 09 की सीमा तक ।

वार्ड क्रमांक 14 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

उत्तर :- नगर परिषद कि पूर्वी सीमा से पश्चिम कि ओर बढ़ते हुए वार्ड क्रमांक 13 के दक्षिण सीमा के साथ चलते हुए ए.बी.रोड तक ।

पूर्व :- ए.बी.रोड कुन्दन बेग कि दुकान से आगे परमानन्द पत्तार वाले की दुकान तक ।

दक्षिण :- नगर परिषद कि पूर्वी सीमा से पश्चिम कि ओर चलते हुए बेगन्दा रोड हरिजन मोहल्ला के समस्त मकान ।

पश्चिम :- ए.बी.रोड हनुमान मंदिर के आगे से एम.पी.ई.बी. से कालेआम के सामने दक्षिण कि ओर नगर परिषद कि दक्षिण सीमा तक एवं पूर्व दिशा में नारायण कॉलोनी के समस्त मकान ।

वार्ड क्रमांक 15 राजीव गाँधी वार्ड

- उत्तर :- अम्बिका स्कूल के आगे पश्चिम दिशा बुटीनाला तक ।
- पूर्व :- ए.बी.रोड बावडी से आगे दक्षिण कि ओर प्रकाश नगर व्यंकटेश नर्सिंग होम के आगे बढ़ते हुए नगर परिषद की सीमा तक ।
- दक्षिण :- पश्चिम सीमा बुटीनाले से पूर्व तरफ अम्बिका देवीजी मंदिर गुजराती कॉलानी मीठा कॉलोनी ए.बी.रोड बावडी तक के समस्त मकान एवं सुन्देल रोड दक्षिण सीमा तक के मकान ।
- पश्चिम :- नगर पंचायत कि पश्चिम सीमा बुटीनाले से दक्षिण कि ओर बढ़ते हुए नगर परिषद कि दक्षिण सीमा तक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

धार, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 2068-परिसीमन-धार-2017.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2067-परिसीमन-धार-2017, दिनांक 13 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

Bhopal, the 13th February, 2017

No. 2067.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Parishad Dhamnod as per Schedule given below :—

SCHEDULE

Serial no. of wards and their names:

Ward No.	Name of ward	Ward No.	Name of ward
1.	Indira Gandhi Ward	9.	Maharani Laxmibai Ward
2.	Hanuman Ward	10.	Mukherji Ward
3.	Veer Sanvarkar Ward	11.	Shubash Chandra Bose Ward
4.	Devi Ahilya bai Ward	12.	Jawahar Lal Nehru Ward
5.	Sanjay Gandhi Ward	13.	Mahatma Gandhi Ward
6.	Chandra Shekhar Azad Ward	14.	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
7.	Lok Manya Tilak Ward	15.	Rajeev Gandhi Ward
8.	Shaheed Bhagat Singh Ward		

Ward No. 01 : Indira Gandhi Ward

- North :** Start From at A.B. Road near Guljhara bridge towards east going with bank of Butinala north Nagar Parishad Limit Upto eastern Nagar Parishad.
- South :** Start From at Palasia Road to House of Khema Towards East Going Upto Muhadiya nala.
- East :** Start From at Palasia Road towards east going Nagar Prishad Limit Upto South Side house of Khema .
- West :** Start From at Nagar Parishad North limit towards Guljhara Bridge upto south going towards A.B.road of buildings to House of Suresh jain.

Ward No. 02: Hanuman Ward

- North :** Start From at Shri Nath Jining, A.B road towards along with bank of butinala upto western Nagar Parishad limit.
- South :** From Start From at Ward No. 02 eastern limit to Western going Butinala limit to Ravi cotton and basti of all buildings toward east side towards mandi road of south direction to house to east going to House of Kanhiyalal Aagiwal .
- East :** Start From at Mandi Gate to eastern Going to A.B. Road to Babu seth Hotel to Narayan vihar colony of all buildings and Moti Guman house towards going Lalvadi , A.B. Road to eastern limit of Butinala.
- West :** Nagar parishad to western limit of butinala north going to Nagar Parishad northern limit.

Ward No. 03 : Veer Sanvarkar Ward

- North :** Start From at northern limit of city going towards west Ashok bhai manager going towards to A.B.Road..
- South :** Start From at Maheshwar road house of Nemichand to east going Kumahar Gaddha to house of shyam maratha.
- East :** Start From at House of ajay patidar front to house of jagdish bhai patidar.house of shri ram sharma to east front going to house of Om Sultanekar to south side ,house of Kailash sharma going towards ward No. 05 northern limit.
- West :** Start From at A.B Road house of Narendra Jain towards south all building of Mangal Nagar going to Maheshwar Road.

Ward No. 04 : Devi Ahilya Bai Ward

- North :** Start From at Indra nagar Sharwan Yadav going to Palasia road of south side of all house to house of Kamal yadav..
- South :** Start From at East limit of city, Tejaji temple going to west all houses of ward No. 03 east direction limit..
- East :** Start From at House of Bheru singh indra, Tejaji temple to north going to house of Dinesh karma.
- West :** Start From at House of Kamal yadav towards going south house of Mangilal Amdabadi towards going east house of Devkaran Netaji going towards ward No. 03 northern limit.

Ward No. 05 : Sanjay Gandhi Ward

- North :** Start From at Nagar Parishad east limit to going west to ward No. 04 of all houses.
- South :** Start From at Maheshwar road house of Jaiswal to going towards east Maheshwar road north limit all house going towards Forest Office.
- East :** Start From at Forest Office north going to Maa Narmada degree collage to agriculture land north limit.
- West :** Start From at Kumahar gadda house of Ashok balai to north limit to all building going towards ward No. 03 south limit.

Ward No. 06 : Chandra Shekhar Azad Ward

- North :** Start From at House of Mahavir singh to south going all houses east going towards house of Sanjay Nagar.
- South :** Start From at Forrest Office to east going to Mahehswar road of all houses to Bridge.
- East :** Start From at Maheshwar road bridge north going of all house of Fundu Mohammad mosque street to house.
- West :** Start From at Bridge to going north of all houses, Muhadiya north side of Sarswati Shishu Mandir to going all house.

Ward No. 07 : Lokmanya Tilak Ward

- North :** Start From at Street of Din mohammad Pomdiya mosque Sanjay Nagar house to east limit going to all houses
- South :** Start From at House of housing board colony, Govt. Patwari Aavash to front east limit all houses.
- East :** Start From at North limit going to south of all houses, Collage, to Maheshwar road all south side houses,.
- West :** Start From at Street of mosque going to Maheshwar road Suchitra Nagar, Priti Nagar of all houses , housing board to south limit..

Ward No. 08 : Shahid Bhagat Singh Ward

- North :** Start From at Maheshwar road house of Gendalal Sadhav going to west, Ashirwad Nagar, Omkar colony of all house to A.B road.
- South :** Start From at East boundary of city to west going Muhadiya road west limit.
- East :** Start From at Housing board colony house of Santosh Rathod to east direction Baydi of all houses to Tayal colony all houses to Maheshwar road
- West :** Start From at Maheshwar chouraha, A.B road to going East side of all houses, shops, to Govt. hospital.

Ward No. 09 : Maharani Laxmi bai Ward

- North :** Start From at A.B road , Harihar Jining house to East ward No. 08 to south direction going to Nagar Parishad east boundary.
- South :** Start From at A.B. Road, Jain hospital going to Dahivar Marg towards to Canal to East limit of Nagar Parishad.
- East :** Start From at East boundary of Nagar Parishad to south going to ward No.13 limit.
- West :** Start From at A.B road, Harihar Jining house to south going Jain hospital to south direction to house of Om Choudary. East going to Dahivar Marg going to Girls school behind Street of Poonam Bhai Topi House of Rajesh Patidar. to street of Balaji temple of north side to east to house of Kamlesh Goud.

Ward No. 10 : Mukherji Ward

- North :** Start From at Mandi road house of Ramesh Jain to east going to Nagar Parishad complex to A.B.Road.
- South :** Start From at East direction Nai Aabadi going to west Muktanand Parisar of all houses to Butinala area.
- East :** Start From at A.B.Road, Maheshwar Chouraha to south direction going to Nai Aabadi to Shiv Nagar colony, Satibihar colony, Muktanand Parisar to all house to Nai Aabadi to house of Biharilal dongle.
- West :** Start From at Nagar Parishad west limit to Butinala side north to ward No.02 to south direction.

Ward No. 11 : Shubash Chandra Bose Ward

- North :** Start From at Jayant Dongle Nai Aabadi to behind street going south Patel colony to houses going to ward No.10 limit.
- South :** Start From at Jawahar Marg in A.B. road north direction of all houses Ganesh temple going to Bakoriya seri to all houses to Bavadi seri, sati goya, Ram Mandir to east going to south going all houses Hatai Mohalla to west direction of all houses to east and house of Keshar Bai Kahar.
- East :** Start From at Jayant Dongle's complex street behind going to south bus station to Nai Seri all houses to Ajgar Bohara house ahead to Hari Mundra, A.B road .
- West :** Start From at West Limit Nagar Parishad to Butinala to north going ward No.10.

Ward No. 12 : Jawahar Lal Nehru Ward

- North :** Start From at Jawaharlal marg House of Mangilal Rathod to east going house of Jaynarayan Maltare photo framing.
- South :** Start From at Sundrel road to west going Ambika higher secondary school to all house.
- East :** Boundary Start From at A.B. road of Photo framing south going Sundrel Phata of all house.
- West :** Start From at Farming land of Devram Gujrati going to east to ward No. 11.

Ward No. 13 : Mahatma Gandhi Ward

- North :** Start From at East limit of Nagar Parishad to South to ward no. 14 boundary.
- South :** Start From at house of Sunil Sharma to south to east going to Nagar Parishad east boundary.
- East :** Start From at A.B road Balaji temple going to south to house of Hukam Bhai Paan
- West :** Start From at Balaji temple street south going to ward No.09 limit.

Ward No. 14 : Sardar Vallabh Bhai Patel Ward

- North :** Start From at east limit of Nagar Parishad to west going ward No.13 to south limit to A.B road.
- South :** Start From at east limit of nagar parishad to west going to beganda road, Harijan Mohalla all houses.
- East :** Start From at A.B road Kundan bag shop to Parmanand pattarwala shop.
- West :** Start From at A.B. Road Hanuman temple going to MPEB to infront of Kala aam to south nagar parishad South limit and east direction to Narayan colony.

Ward No. 15 : Rajeev Gandhi Ward

- North :** Start From at Ambika school to buti nala.
- South :** Start From at Western limit butinala to east Ambika Devi temple, G ujrati colony, Mitha colony, A.B road Bavdi to all houses and houses of sundrel road south boundary.
- East :** Start From at A.B road bavdi going to south to Prakash Nagar, Vayantesh Nurshing home, going to Nagar parishad boundary.
- West :** Start From at west boundary of nagar parishad to butinala to south going nagar parishad south boundary.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHRIMAN-SHUKLA, Collector.

धार, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 2079-जि.श.वि.अ.-2017.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर, जिला धार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नगरपालिका परिषद् मनावर, जिला धार के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :-

—: अनुसूची :-

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
01	वार्ड क्रमांक 01 आजाद वार्ड	09	वार्ड क्रमांक 09 डॉ. मुखर्जी वार्ड
02	वार्ड क्रमांक 02 जवाहर वार्ड	10	वार्ड क्रमांक 10 पटेल वार्ड
03	वार्ड क्रमांक 03 महात्मा गांधी वार्ड	11	वार्ड क्रमांक 11 नरसिंह वार्ड
04	वार्ड क्रमांक 04 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	12	वार्ड क्रमांक 12 बंकनाथ वार्ड
05	वार्ड क्रमांक 05 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड	13	वार्ड क्रमांक 13 विनोबा वार्ड
06	वार्ड क्रमांक 06 तिलक वार्ड	14	वार्ड क्रमांक 14 उपाध्याय वार्ड
07	वार्ड क्रमांक 07 लक्ष्मीबाई वार्ड	15	वार्ड क्रमांक 15 शिवभानुसिंह वार्ड
08	वार्ड क्रमांक 08 डॉ. अम्बेडकर वार्ड		

(वार्डों की चतुर्सीमा)

वार्ड क्रमांक 01

आजाद वार्ड

उत्तर:- पश्चिम में भारत - बाबु व बुदा-बाबु के मकान से पूर्व की ओर लायंस स्कूल होते हुए उत्तर में कैलाश - भाचरिया के मकान तक।

दक्षिण:- पश्चिम में ओरिजन स्कूल से गुलाटी रोड़ पर पूर्व दिशा में चलते हुए सत्यनारायण इंटरप्राइजेस तक।

पूर्व:- दक्षिण में सत्यनारायण इंटरप्राइजेस गुलाटी रोड़ से इंदौर रोड़ की पश्चिम पट्टी पर चलते हुए उत्तर - पूर्व में खलील खत्री के मकान तक।

पश्चिम:- उत्तर में फुक्कट पालन व रामलाल - बंडडु के मकान से दक्षिण - पूर्व में अनिल बसंत मालवी व शफी- गुलशेर के मकान होते हुए जयगुरुदेव कालोनी से दक्षिण में गुलाटी रोड़ पर ललीताबाई सीसोदिया के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 02
जवाहर वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में ओम सोलंकी के मकान से सिंघाना रोड़ पर पूर्व में चलते हुए सूर्या लॉज तक तथा आबकारी कार्यालय से पूर्व में रंजजीसिंह बघेल टी.आई. के क्वार्टर तक
- दक्षिण:-** पूर्व में संजय रामप्रसाद साल्वी के मकान से जवाहर मार्ग पर पश्चिम की ओर चलते हुए आंगनवाड़ी तक
- पूर्व:-** उत्तर में पवन सोहन - फतेलाल के मकान से दक्षिण संजय - रामप्रसाद साल्वी के मकान तक
- पश्चिम:-** उत्तर में सिंघाना रोड़ पर ओम सोलंकी के मकान से दक्षिण आशिक - इकबाल की चक्की तक

वार्ड क्रमांक 03
महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में विद्यापूर्ण कालोनी की उत्तरी सीमा तथा फतेसिंह - मुकुटसिंह मूवेल के घर से पूर्व में भारत भवन तक
- दक्षिण:-** पश्चिम में समन्ति ऐजेंन्सी से सिंघाना रोड़ होते हुए रमेशचन्द्र - बालचन्द्र के मकान को लेते हुए पूर्व में रीगल मेडीकल तक
- पूर्व:-** दक्षिण में गांधी चौराहे पर रीगल मेडीकल से उत्तर में धार रोड़ के पश्चिमी किनारे पर चलते हुए मण्डी, बैंक ऑफ इण्डिया व एल.आई.सी. होते हुए उत्तर में भारत भवन तक
- पश्चिम:-** उत्तर में विद्यापूर्ण-2 कालोनी की पश्चिमी सीमा को लेते हुए दक्षिण में ग्लोबल स्कूल से कैलाश हास्पिटल तक

वार्ड क्रमांक 04
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में सिंचाई कालोनी की उत्तरी सीमा को लेते हुए पूर्व की ओर धार रोड़ पार करके नारायण - नाथुराम सोनी के मकान से पूर्व में संतोष - रतनसिंह के मकान से उत्तर - पूर्व में गोविन्द वास्केल के मकान व बालिका छात्रावास से पूर्व में अनील - रामसिंह के मकान से गोपालपुरा रोड़ पार करते हुए पूर्व में महेन्द्र त्रिवेद के मकान तक
- दक्षिण:-** पश्चिम में धार रोड़ पर सतीष खटोड़ के मकान से पूर्व में मोहन - मड़ीया वास्केल के मकान तक
- पूर्व:-** उत्तर में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र से दक्षिण में संतोष - भावसिंह वास्केल के मकान तक तथा कैलाश - बाबुलाल खदिड़ा के मकान से गोपालपुरा रोड़ को लेते हुए दक्षिण-पश्चिम में दयाराम - बालचंद कनेल के मकान तक
- पश्चिम:-** उत्तर में सिंचाई कालोनी की पश्चिमी सीमा से दक्षिण सीमा पर चलते हुए धार रोड़ पार करते हुए पन्नालाल सूर्यवंशी के मकान से दक्षिण की ओर धार रोड़ की पूर्वी पट्टी पर चलते हुए सतीष खटोड़ के मकान तक

वार्ड क्रमांक 05
डॉ. राधाकृष्णन वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में गट्टूलाल के मकान से पंचवटी कालोनी पार करते हुए पूर्व में गोपालपुरा रोड़ पर शोभाराम भवेल के मकान तक
- दक्षिण:-** पश्चिम में तहसील से पूर्व में पुलिस थाने तक
- पूर्व:-** उत्तर में शोभाराम भवेल के मकान से दक्षिण में पैराडाइस अकेडमी से गोपालपुरा रोड़ पर चलते हुए इन्दौर रोड़ पार करके दक्षिण में पुलिस थाने तक
- पश्चिम:-** उत्तर में गट्टूलाल के मकान व आईल मील से दक्षिण की ओर धार रोड़ का पूर्वी किनारा लेते हुए गांधी चौराहा पार करके दक्षिण में तहसील तक

वार्ड क्रमांक 06
तिलक वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में आंगनवाड़ी से दक्षिण - पूर्व में सलीम जुम्मा व रिहाना इकबाल के मकान से टिचिंग ग्राउण्ड पार करके सुकानन्द - बालकृष्ण के मकान तक
- दक्षिण:-** पश्चिम में कोर्ट से पूर्व में बसंतीबाई - प्रतापसिंह के मकान तक
- पूर्व:-** दक्षिण में सदिर पठान (सदिर सरदार शेख) के व टंटु के मकान से उत्तर की ओर (रोड़ की पट्टी वाले मकान के एक लाईन पिछे) सिद्दकी टेलर्स के मकान से पूर्व में मुड़कर गली पर चलते हुए सुकानन्द - बालकृष्ण के मकान तक
- पश्चिम:-** उत्तर में सलीम - मूनीर के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए जितेन्द्र - टिकम पाटीदार के मकान से गोपालपुरा रोड़ के पूर्वी किनारे को लेते हुए दक्षिण में कोर्ट तक

वार्ड क्रमांक 07
लक्ष्मीबाई वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में सूल्तान - अहमदनुर के मकान से पूर्व में नासीर - भुरु पठान व गौशाला तक
- दक्षिण:-** पश्चिम में दिनेश - गंगाराम धनगर के मकान से पूर्व में निन्द्रा - अनील मिश्रा के मकान से पूर्व में रोड़ पर चलते हुए भारतसिंह - रंजितसिंह राठौड़ के मकान व जागेश्वर मंदिर तक
- पूर्व:-** दक्षिण में जागेश्वर मंदिर व भारतसिंह - रंजितसिंह राठौड़ के मकान से नाले के किनारे - किनारे उत्तर में चलते हुए गौशाला से गनबाई - इन्दरसिंह जमरा व उंकार - रतन वास्केल के मकान तक
- पश्चिम:-** उत्तर में विजय रामसिंह पंवार के मकान से दक्षिण में दिनेश - गंगाराम धनगर के मकान तक

वार्ड क्रमांक 08
डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में मुन्नालाल के मकान से पूर्व में रोड़ पर चलते हुए टिकम - रतनलाल के मकान (जागेश्वर मंदिर) तक
- दक्षिण:-** पश्चिम में राजेन्द्र सेन (जवाहर मार्ग पर) के मकान से पूर्व में जवाहर मार्ग पर चलते हुए विजय स्तम्भ तक तथा इन्दौर रोड़ पार करके मलतु गवली की दुकान से दक्षिण में चुनिया - गवली के मकान से पूर्व में कालुराम हरचंद के मकान तक
- पूर्व:-** उत्तर में टिकम - रतनलाल सोलंकी के मकान से दक्षिण में तुलसीराम - मांगीलाल प्रजापती व इन्दर - राजावत के मकान से होतु हुए खेड़ापति हनुमान तक
- पश्चिम:-** उत्तर में सिराज (मुखर्जी मार्ग पर) की दुकान से दक्षिण में चलते हुए इन्दौर रोड़ पार करते हुए तिलक मार्ग पर दक्षिण में चलते हुए राजेन्द्र सेन के मकान तक

वार्ड क्रमांक 09
डॉ. मुखर्जी वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में शांतीलाल पटवा के मकान से भगतसिंह मार्ग पर पूर्व में चलते हुए वाहिद मंसूरी के मकान तक
- दक्षिण:-** पश्चिम में सोहन गट्टु के मकान से पूर्व में कहार मोहल्ला होते हुए दालुराम - कालु प्रजापत इन्दौर रोड़ तक
- पूर्व:-** उत्तर में वाहिद मंसूरी के मकान से इन्दौर रोड़ पर दक्षिण में चलते हुए भगवान शंकर पाटीदार के मकान (सार्वजनिक शौचालय) माननदी के किनारे तक
- पश्चिम:-** उत्तर में शांतीलाल पटवा के मकान से दक्षिण में चलते हुए (तिलक मार्ग से सटी पट्टी के पिछे) दक्षिण में सोहन गट्टु के मकान तक

वार्ड क्रमांक 10
पटेल वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में वासू किराना से जवाहर मार्ग की दक्षिण पट्टी पर चलते हुए तिलक मार्ग पार करके विजय स्तम्भ इन्दौर रोड़ तक
- दक्षिण:-** पूर्व में बालिया गट्टु के मकान से पश्चिम में जितेन्द्र नामदेव के मकान तक
- पूर्व:-** उत्तर में विजय स्तम्भ से इन्दौर रोड़ की पश्चिमी पट्टी पर दक्षिण में चलते हुए रीम-झीम कोल्ड्रींग्स तक
- पश्चिम:-** उत्तर में वासू किराना से वल्लभ भाई मार्ग की पूर्वी पट्टी पर दक्षिण में चलते हुए जितेन्द्र - रमशे नामदेव के मकान तक(नाले के पास)

वार्ड क्रमांक 11
नरसिंह वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में अलताफ गैरेज से दक्षिण पूर्व में दूर्गा मंदिर से पूर्व में जवाहर मार्ग पर जामा मस्जिद से जवाहर मार्ग की दक्षिणी लाईन पर चलते हुए क्रांती चौपाटी पर महेन्द्र फतेलाल के मकान तक
- दक्षिण:-** पूर्व में आंगनवाड़ी से उत्तर पश्चिम में जमात खाना से नाला व विनोबा मार्ग पार करके पश्चिम में मंसूर सैफुद्दीन अवल्दा वाले के मकान से उत्तर पश्चिम में सिंघाना रोड़ पर अदनान किराना स्टोर्स तक
- पूर्व:-** उत्तर में क्रांती चौपाटी पर महेन्द्र - फतेलाल के मकान से दक्षिण में वल्लभ मार्ग की पश्चिमी पट्टी पर चलते हुए दक्षिण में आंगनवाड़ी तक
- पश्चिम:-** दक्षिण में अदनान किराना स्टोर्स से सिंघाना रोड़ पर चलते हुए उत्तर में अलताफ गैरेज तक

वार्ड क्रमांक 12
बंकनाथ वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में गजेन्द्रसिंह - राजुखेड़ी के मकान से पूर्व में गुलाटी रोड़ पर चलते हुए सिंघाना रोड़ पार करके कांग्रेस भवन से मकबुल - अशरफ पठान के मकान से इकबाल - अशरफ पठान के मकान से ताहिर सैफुद्दीन के मकान तक
- दक्षिण:-** पूर्व में देवदास - गणेश पाटीदार के मकान से पश्चिम रणछोड़ मुकाती की दुकान व सिंघाना रोड़ पार कर विनायक मेडीकल (जयप्रकाश शर्मा) से दक्षिण - पश्चिम में सिंघाना रोड़ के पश्चिमी किनारे पर चलते हुए पेट्रोल पम्प व दामोदर खण्डेलवाल जिनिंग तक
- पूर्व:-** उत्तर में ताहिर - सैफुद्दीन के मकान से दक्षिण में (विनोबा मार्ग की एक पट्टी वाले छोड़कर) पार्वती - हरीजी पाटीदार के मकान से दक्षिण - पश्चिम में दिनेश - शंकरलाल पाटीदार के मकान तक,
- पश्चिम:-** दक्षिण में दामोदर खण्डेलवाल जिनिंग से उत्तर में भिलट बाबा मंदिर के उत्तर - पूर्व में गजेन्द्रसिंह राजुखेड़ी (गुलाटी रोड़ पर) के मकान तक

वार्ड क्रमांक 13 विनोबा वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में विनोबा मार्ग पर मंसूर कासम बोहरा व शोएब अली – तैय्यब अली के मकान से दक्षिण पूर्व में नाले के किनारे चलते हुए पूर्व में नदी किनारे करसन के मकान तक
- दक्षिण:-** पूर्व में नदी किनारे नारायण – कैलाश के मकान से पश्चिम की ओर सत्यनारायण मंदिर होते हुए विनोबा मार्ग पार करके पश्चिम में मोतीलाल – गणेश पाटीदार के मकान तक
- पूर्व:-** उत्तर में करसन के मकान से दक्षिण-पश्चिम में मान नदी के किनारे नारायण – कैलाश के मकान तक
- पश्चिम:-** दक्षिण में मोतीलाल – गणेश पाटीदार के मकान से उत्तर में भुरु – रहीम कासम खां के मकान से उत्तर में शांतिलाल – किशोरीलाल शर्मा के मकान से पूर्व में हरीम – टिकम पाटीदार के मकान से उत्तर में गली पार कर विजय – रामलाल सोनी के मकान से उत्तर में जौहर अली के मकान तक

वार्ड क्रमांक 14 उपाध्याय वार्ड

- उत्तर:-** पश्चिम में सिंघाना रोड़ पर रमेश – आशाराम के मकान से पूर्व में नारायण – उंकार पाटीदार के मकान से मुकेश – रूखड़ीया कुशवाह के मकान से पूर्व में शरद कुमार के मकान से धमेन्द्र – घिसालाल के मकान तक
- दक्षिण:-** पश्चिम में कृषि विभाग कार्यालय से पूर्व में सुरेश – गडिवाल गोदाम व रमेश – हिरा के मकान होते हुए कालु – सुखलाल के मकान तक
- पूर्व:-** दक्षिण में गंगा – हरी के मकान से उत्तर में नदी किनारे विक्रम – सुखलाल के मकान होते उत्तर में धर्मेन्द्र – घिसालाल के मकान तक
- पश्चिम:-** उत्तर में महेश – मोतीलाल पाटीदार व राधेश्याम – कन्हैयालाल विश्वकर्मा के मकान से पूर्व में राजकुमार जैन जिनिंग(गोल्डी जिनिंग) से छत्तरसिंह – बिशनसिंह के मकान तक

वार्ड क्रमांक 15
शिवभानुसिंह वार्ड

- उत्तर:—** पश्चिम में प्रकाश प्रजापत के मकान से पूर्व में आंगनवाड़ी से उत्तर – पूर्व में ठाकुर जस्सु व अमरसिंह – प्रताप के मकान से पूर्व में नदी पार करके मोहन – जामसिंह के मकान तक
- दक्षिण:—** पश्चिम में शांतिलाल – बालाजी के मकान से दक्षिण-पूर्व में इन्दौर रोड़ पर शिवानी स्टील फर्नीचर व मालवीया ढाबा तक
- पूर्व:—** दक्षिण में भुरेसिंह – रामसिंह के मकान से उत्तर – पूर्व में टोंकी रोड़ होतु हुए सीताराम – जूवानसिंह व रामसिंह – कालिया के मकान तक
- पश्चिम:—** उत्तर में इन्दौर रोड़ पर प्रकाश प्रजापत के मकान से दक्षिण में इन्दौर रोड़ व मान नदी पार करके मोहन किशन के मकान से शांतिलाल – बालाजी के मकान तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

धार, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 2080-परिसीमन-धार-2017.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2079-परिसीमन-धार-2017, दिनांक 13 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

Bhopal, the 13th February 2017

No. 2079.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Palika Parishad Manawar as per Schedule given below :—

SCHEDULE**Serial no. of wards and their names:**

Ward No.	Name of ward	Ward No.	Name of ward
01	Ajad Ward	09	Dr. Mukharji Ward
02	Jawahar Ward	10	Patel Ward
03	Mahatma Gandhi Ward	11	Narshingh Ward
04	Dr. Rajendra Prasad Ward	12	Bankanath Ward
05	Dr. Radhakrishnan Ward	13	Vinoba Ward
06	Tilak Ward	14	Upadhyay Ward
07	Laxmi Bai Ward	15	Shivbhanusingh Ward
08	Dr. Ambedkar Ward		

**Ward Number 01
Ajad Ward**

North:- Starting from west, Bharat Babu and Babu - Buda's house to Lions school in east to Kailash - Bhachariya in north direction.

South:- Starting from Orision school in west to SatyaNarayan Interprises in east direction.

East:- Starting from SatyaNarayan Interprises in south to Khalil - Khatri's house in north - east direction.

West:- Starting From north, Poultry Farm and Ramlal-Bandu's house to Anil - Basant Malvi's house in south east direction to Jaigurudev colony to Lalitabai Sisodiya's house in south direction at Gulati road.

Ward Number 02 Jawahar Ward

- North:-** Starting from Om Solanki's house in west to Surya hotel in east direction.
- South:-** Starting from Sanjay - Ramprasad Salvi to Aaunganwadi in west direction on Jawahar Lal marg.
- East:-** Starting from Pavan, Sohan - Fa telal's house to Sanjay - Ramprasad Salvi's house in south.
- West:-** Starting from Om Solanki's house in north to Ashiq - Iqbal's house in south direction.

Ward Number 03 Mahatma Gandhi Ward

- North:-** Starting from west, From Vidhyapurna colony and Fatesingh - Mukutsingh Muvel's house to Bharat Bhavan in east direction.
- South:-** Starting from Samanti Agency in west to Rameshchandra - Balchandra house to Regal Medical in east.
- East:-** Starting from Regal Medical at Gandhi Square to Bharat Bhavan on Dhar road in north.
- West:-** Starting from Vidhyapurna-2 Colony in north to Global school to Kailash Hospital in south.

Ward Number 04

Dr. Rajendra Prasad Ward

North:- Starting from north boundry of Irrigation colony in west, moving towards Santosh – Ratansingh’s house in east by crossing dhar road and Narayan – Nathuram Soni’s house again from Santosh – Ratansingh’s house to Govind Waskel’s house and Girl’s Hostal in north – east to Anil – Ramsingh’s house on east to Mahendra Trivedi’s house (crossing Gopalpura raod).

South:- Starting from Satish Khatod’s house on dhar road on west to Mohan – Madiya Waske’s house in east direction.

East:- Starting from Aanganwadi Training center and Santosh-Bhavsingh Waskel’s house to Kailash-Babu Khadida’s house to Dayaram-Balchand Kanel’s house in south – westdirection.

West:- Starting from north taking Irrigation colony’s west boundary’s and than moving on south boundary in east and crossing dhar road, from Pannalal Suryavanshi’s house to moving on eastern line of dhar road in south till Satish Khatod’s house.

Ward Number 05

Dr. Radhakrishnan Ward

North:- Startind from Gattulal house in west to Shobharam Bhavel's house in east by crossing Panchavati colony.

South:- Starting from Tehsil in west to Police Station in east direction.

East:- Startind from Shobharam Bhavel's house in north to Police Station in south direction.

West:- Starting from Gattulal house and Oil Meal in north to Tehsil in south direction.

Ward Number 06**Tilak Ward**

- North:-** Starting from Aanganwadi in west to Salim - Jumma and Rihana-Iqbal's house in south - east direction to Sukanand-Balkrishna house in south-east direction.
- South:-** Starting from in west to Basantibai - Pratapsingh Solanki's house in east direction.
- East:-** Starting from Sadir Pathan's and Tantu's house in south to Siddiki Tailers on going in north direction to Sukanand - Balkrishna house in east direction.
- West:-** Starting from Salim - Munir's house to Jitendra - Tikam Patidar's house on going south direction to court in south direction moving on eastern cotner of Gopalpura road.

Ward Number 07**Laxmibai Ward**

- North:-** Starting from Sultan - Aehmadn ur house to Nashir - Bhuru Pathan's house .
- South:-** Starting from Dinesh - Gangaram Dhangar's house in west to Nindra - Anil Mishra's house in east to Bharatsingh - Ranjitsingh Rathod house in east.
- East:-** Starting from Jageshvar Mandir in south to Ganbai - Indarsingh Jamara's and Unkar - Ratan waskels house in north.
- West:-** Starting from Vijay - Ramsingh Panwar's house in nort to Dinesh Gangaram Dhangar's in south.

Ward Number 08
Dr. Ambedkar Ward

- North:-** Starting from Munnalal's house in west moving on road in east direction till Tikam - Ratanlal's house.
- South:-** Starting from Rajendra Sen's house on Jawahar marg in west, Going on Jawahar marg in east Direction and crossing Indore road till Maltu Gavali's shop to Chuniya Gavali's in south direction to Kaluram - Harchand's house in east direction.
- East:-** Starting from Tikal - Ratanlal's house in north to Tulsiram - Mangilal Prajapati's and Indar - Rajavat house in south direction to Khedapati Hanuman Mandir's in south direction.
- West:-** Starting from Siraj Shop on Mukharji marg in north moving in south direction and crossing Indore road and going on Tilak marg in south direction till Rajendra Sen's house.

Ward Number 09
Dr. Mukharji Ward

- North:-** Starting from Shantilal Patva's house in west, Moving on Bhagatsingh marg in east direction till Wahid - Mansuri's house.
- South:-** Starting from Sohan - Gattu's house in west to Daluram - Kalu Prajapat's house on Indore road in east direction.
- East:-** Starting from Wahid Mansuri's house in north to Bhagvan - Shankar Patidar's in south direction.
- West:-** Starting from Shantilal Patva's house in north to Sohan - Gattu's house in south.

Ward Number 10

Patel Ward

- North:-** Starting from Vasu Kirana shop in west, moving south Line to Jawaharlal marg and crossing Tilak marg till Vijay Stambh on Indore road in east direction.
- South:-** Starting from Baliya - Gattu's house in east to Jitendra Namdev's house in west.
- East:-** Starting from Vijay Stambh in north to RimZim Coldrinks in south direction.
- West:-** Starting from Vasu Kirana shop in north to Jitendra - Ramesh Namdev's house near nala in south direction.

Ward Number 11

Narshingh Ward

- North:-** Starting from Altaf Garrag in west to Durga Mandir in south - east direction to Jama Mazeed on Jawahar marg to Mahendra - Fatelal, Kranti Chopati in east direction.
- South:-** Starting from Aanganwadi to Jamat Khana in north-west direction to Mansur - Saifuddin house by crossing Vinoba marg to Adnan Kirana Store's on Singhana road in north - west direction.
- East:-** Starting from Mahendra - Fatelal's house in north to Aanganwadi in south direction.
- West:-** Starting from Adnan Kirana Store's, moving on Singhana road till Altaf Garrage in north - east direction.

Ward Number 12

Banknath Ward

North:- Starting from Gajendrasingh Rajukhedi house on Gulati road to Congress Bhavan by crossing Singhana road to Makbul - Ashraf Pathan's house to Tahir - Saifuddin house in east.

South:- Starting from Devdas - Ganesh Patidar's house in east to Ranchod Mukati's shop in west to Vinayak medical (crossing Singhana road) on moving Singhana road western line till Petrol Pump and Damodar Khandelwal industry in west

East:- Starting from Tahir - Saifuddin's house in north to Parvati - Hariji Patidar's in south.

West:- Starting from Damodar Khandelwal industry in south to Bhilat Baba Mandir in north to Gajendrasingh Rajukhedi's house on Gulati road in north-east direction.

Ward Number 13

Vinoba Ward

North:- Starting from Shoaib Ali - Tayyab Ali's house in west to Kasam's house near River in south east direction,

South:- Starting from Narayan - Kailash house in east to SatyaNarayan Mandir in west to Motilal - Ganesh house in west.

East:- Starting from Karsan's house in north to Narayan-Kailash house in south direction.

West:- Starting from Motilal - Ganesh house in south to Bhuru - Rahim Kasam Khan's house in north direction to Shantilal - Kishorilal Sharma in north direction to Harim - Tikam Patidar's house in east to Johar - Ali's in north direction.

Ward Number 14 **Upadhyay Ward**

- North:-** Starting from Ramesh - Asharam house on Singhana road in west to Narayan - Unkar's house in east to Mukesh - Rukhadiya Kushwah's house in east to Dharmendra - Ghishalal house.
- South:-** Starting from Agriculture Office in west to Suresh - Gadiwal Godaun and Ramesh- Heera's house in to Kalu - Sukhalal's house in east.
- East:-** Starting from Ganga-Hari house in south to Dharmendra - Ghisalal house in north.
- West:-** Starting from Mahesh - Motilal Patidar and Radheshyam - Kanhaiyalal Vishvakrma in north to Srajkumar industry in east to Chattarsingh - Bishansingh's house.

Ward Number 15 **Shivbhanusingh Ward**

- North:-** Starting from Prakash Prajapat's house in west to Anganwadi in east direction to Thakur Jassu and Amarsingh - Pratap's house in north east direction to Mohan - Jamsingh's house in east direction (crossing the River).
- South:-** From Shantilal - Balaji's house in west to Malviya Dhaba's on Indore road in south - east direction.
- East:-** From Bhuresingh-Ramsingh's house in south to Sitram - Juvansingh and Ramsingh - Kaliya house in north - east direction.
- West:-** From Prakash - Prajapat's house on Indore road in north to Mohan - Kishan's house in south direction (crossin the Maan River).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SRIMAN SHUKLA, Collector.

धार, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 2087-जि.श.वि.अ.-2017.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर, जिला धार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नगर परिषद् कुक्षी, जिला धार के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :—

:-अनुसूची:-

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम
1.	वार्ड क्रमांक 01 पश्चिमी वार्ड	9.	वार्ड क्रमांक 09 शिवाजी वार्ड
2.	वार्ड क्रमांक 02 किदवई वार्ड	10.	वार्ड क्रमांक 10 पूर्वी वार्ड
3.	वार्ड क्रमांक 03 सुमाष वार्ड	11.	वार्ड क्रमांक 11 भगतसिंह वार्ड
4.	वार्ड क्रमांक 04 सरदार पटेल वार्ड	12.	वार्ड क्रमांक 12 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
5.	वार्ड क्रमांक 05 चंद्रशेखर आजाद वार्ड	13.	वार्ड क्रमांक 13 आनंद वार्ड
6.	वार्ड क्रमांक 06 सैफिया वार्ड	14.	वार्ड क्रमांक 14 गायत्री वार्ड
7.	वार्ड क्रमांक 07 जवाहर वार्ड	15.	वार्ड क्रमांक 15 डाक बंगला वार्ड
8.	वार्ड क्रमांक 08 तिलक वार्ड		

(वार्डों की चर्तु : सीमा)

वार्ड क्रमांक 1— पश्चिमी वार्ड

उत्तर में— बोर्डिंग हाउस श्री गौड ब्राह्मण समाज धर्मशाला म.क्रं.166 होते हुए लक्ष्मीकालोनी, प्रकाश नगर, भुवनेश्वर कालोनी एवं सम्पूर्ण खुली भूमि, जबरन कालोनी सम्पूर्ण ।
दक्षिण में— ईदगाह पुरानी मकान नं. 123 से मकसुदअली के मकान नं. 147/1 तक
पूर्व में— वार्ड क्रं. 3 एवं 2 की सीमा होते हुए, वार्ड क्रं. 13 की सीमा तक
पश्चिम में— न.प.स्वामित्व की रामचंद्र रामनारायण मिस्त्री की दुकान RO 160 से मं. नं. 17 नानूराम मोतीलाल के पट्टे के मकान तक

—विवरण —

बोर्डिंग हाउस श्री गौड ब्राह्मण समाज धर्मशाला से लक्ष्मी कालोनी ,प्रकाश नगर भुवनेश्वर कालोनी होते हुवे 166/1 मोहनलाल बुदा पाटीदार के मकान तक ।
ईदगाह पुरानी (विजय स्तंभ) से मकसुद अली के मकान तक म.न. 147 धार चिखल्दा मार्ग ।
जबरन कालोनी रामनारायण मिस्त्री के मकान से युसुफ हमीद के मकान तक एवं आगे हुकुम राजपूत के मकान तक दोनो साईट जबरन कालोनी भाग— 1

जबरन कालोनी मकसुद अली खान मकान नं. 147 से रमेश चिलू के मकान तक मकान नं. 8 शेरु भाई-अब्बास के मकान से मंसाराम-नानुराम राठौड के मकान तक जबरन कालोनी भाग 2 दोनो साईट मकसुद अली के मकान से शा.क.उ.मा. विद्यालय ग्राउंड के मकान से होते हुवे पुलिस थाने के सामने बोर्डिंग हाउस तक धार चिखल्दा मार्ग।

वार्ड क्रमांक 2- किदवई वार्ड

उत्तर में- वार्ड क्रं. 3 की सीमा, सुभाष मार्ग गली नं.03 रणछोड-बाबुलाल राठौड का मकान
दक्षिण में- वार्ड क्रं. 13 की सीमा सुभाष मार्ग के दक्षिण-पश्चिम से पूर्व तरफ नाले के ऊपरी किनारे तक
पूर्व में- वार्ड क्रं. 12 की पश्चिमी सीमा, सुभाष मार्ग, गली नं. 5 के सम्पूर्ण भवन
पश्चिम में- पुलिस थाना दक्षिण की ओर चलकर सूर्या टाकीज सिनेमा चौपाटी तक

-विवरण -

सिनेमा चौपाटी शांतीलाल स्वीटस की दुकान से सुशील बर्तन की दुकान होते हुवे काले खां पिर मोहम्मद के मकान तक एवं लियाकत भंगार वाला के मकान से हमीद खां हबीब खा के मकान तक म.नं. 94 (दोनो साईट) इनायत खां हबीब खां (अबीद कलेक्शन) से अनील कुमार लक्ष्मीनारायण गुप्ता के म.नं. 62/1 सुभाष मार्ग तक सुभाष मार्ग गली नं. 04 सरजीत खां नसरत खां म.नं. 02 से अब्दुल पिता अब्दुल रेहमान के मकान तक म.नं. 04 होते हुवे भवानीराम-बाल्या के मकान से इनायत खां नसरत खां के म.नं. 21/1 तक सुभाष मार्ग गली नं. 05 अतुल जैन के मकान नं. 01 से होते हुवे जमील मंसुरी के मकान से अय्युब भंगार वाले के मकान नं. 33 तक

सूर्या टाकिज होते हुवे मेहबुब कालू शाह म.नं. 25/1 से बडपुरा मस्जिद होते हुवे सलीम खां मासुम खां के म.नं. 33 तक

किदवई उप मार्ग म.नं. 01 उस्मान वजीर खां के मकान से टाकीज के पिछे युसुफ खां शफी मोहम्मद के मकान तक म.नं. 30

किदवई उपमार्ग नसीर गुल मोहम्मद म.नं. 31 से बशीर खां मुरानी मोहम्मद के म.नं. 52 (दोनो साईट) तक सुभाष मार्ग गली नं. 02 रसीद भाई पान वाले के मकान नं. 02 से संतोषीलाल-छित्तर सा के मकान नं. 45 तक एवं सुभाष मार्ग गली नं. 03 हनुमान मंदिर के सामने शेलेन्द्र लक्ष्मण रावत म.नं. 15 से सी.एम.ओ. क्वार्टर तक । सुभाष मार्ग म.नं. कुतुबुद्दीन नुर भाई बोहरा के मकान नं. 34 से रणछोड बाबुलाल राठौड के मकान तक । सुभाष मार्ग गली नं. 03 म.नं. 2/4 संतोषीलाल छित्तर सा के मकान से शिवजी कोरजी के म.नं. 14 तक

वार्ड क्रमांक 3- सुभाष वार्ड

उत्तर में- पटेल मार्ग दक्षिण साईड के म.नं. 1 मोहनलाल के मकान से पश्चिम तरफ तथा हलाव के पास रामेश्वर-छोटू की दुकान से पढाव तलावडी रोड की सम्पूर्ण दक्षिण साईड की पट्टी गब्बु के मकान तक तथा पुलिस क्वार्टर, ग्राउण्ड शामिल कर कमल मलका के मकान से पुराना स्वामी नारायण मंदिर कुंए तक

दक्षिण में- सुभाष मार्ग गली नं. 3 दक्षिण साईट के महेन्द्र, सुरेश, ओमप्रकाश, कैलाश, किशोर पिता सीताराम सुगंधी के मकान नं. 51 एवं भगवान बुदा के म. नं. 21 तक

पूर्व में- सुभाष मार्ग पश्चिम तरफ के म. नं. 34 से उत्तर तरफ चलकर म. नं. 57 दाताहरी मंदिर तक.

पश्चिम में- धार चिखल्दा मार्ग उत्तर साईट के म.नं. 24 रमेश हीरा पाटीदार से दक्षिण तरफ चलकर सोमेश्वर के मकान नं. 42 तक ।

- विवरण -

- पटेल मार्ग मोहनलाल-नारायण अग्रवाल म.नं. 01 से डा. आनन्द कुमार राजेन्द्र कुमार पाटीदार के म.नं. 29 तक धार चिखल्दा मार्ग बाबुलाल हिरा पाटीदार म.नं. 24 से पुलीस थाना कुक्षी तक एवं कमल अर्जुन के मकान से पुलीस ग्राउंड होते हुवे पुराना स्वामीनारायण मंदीर कुएं तक। तलावडी रोड रमणलाल छगनलाल राठोड के मकान नं. 3/1 से सीवी समाज की समाधी स्थल के पिछे आशुतोष भगवान पाटीदार के मकान से होते हुवे साईड के समस्त भवन अनीता हागरीया के मकान तक (आरामशीन) तरफ के समस्त मकान लक्ष्मी कालोनी रमेश राधेश्याम प्रजापत के मकान से संतोष मांगीलाल प्रजापत के मकान तकराकेश भगवान के मकान नं. 21 से हनुमान मंदीर होते हुवे कैलाश मुकाती के हास्पीटल म.नं. 50 तक तथा सुगंधी के मकान से उत्तरी ओर लक्ष्मीमाता मंदिर से महेन्द्रकुमार अम्बालाल पटेल के मकान तक पटेल मार्ग गली. नं. 01 म.नं. 1/1 उत्सवलाल गुप्ता के मकान से मोहनलाल अग्रवाल के म.नं. 01 तक पटेल मार्ग गली नं. 02 डा. उमाशंकर पाटीदार के मकान नं. 1 से होते हुवे दशोरा पंच की धर्मशाला म.नं. 25/1 तक अमृतलाल गुप्ता के मकान से होते हुवे पटेल मार्ग म.नं. 2 लोकेश सरदार के मकान नं. 41/4 (कोठार), (दोनों साईट) म.नं. 38 तक पटेल मार्ग गली नं. 03 म.नं. 2 कैलाश भगवान के मकान से होते हुवे भीमा धुरजी के मकान नं. 08 तक दोनों (साईट)

वार्ड क्रमांक 4- सरदार पटेल वार्ड

- उत्तर में- चंद्रशेखर आजाद मार्ग गली नं. 1 म.नं. 25 कालू गप्पू के मकान से पश्चिम तरफ चलकर माधव के म. नं. 33 एवं च. शे. आजाद मार्ग मकान नं. 80 सुपडीया से बाचका वली पीर की दरगाह तक ।
- दक्षिण में- पटेल मार्ग उत्तर साईड पश्चिमी-उत्तर कोने के म.नं. 30 दुर्गेश कुमार के मकान से पूर्व तरफ चलकर मन्नालाल के मकान नं. 91 तक एवं म.गांधी मार्ग उत्तर साईड के पश्चिम-उत्तर कोने के लक्ष्मीकांत के मकान से पूर्व तरफ चलकर पोरवाड़ पंच के मकान नं. 12 तक ।
- पूर्व में- म.गांधी मार्ग जवाहर चौक पोरवाड़ पंच के म.नं. 12 से उत्तर तरफ चलकर श्रद्धानंद उपमार्ग शांति प्याऊ होते हुए, म.नं. 81 अब्दुलभाई के मकान व रासमंडल तक सम्पूर्ण जोशी गली ।
- पश्चिम में- धार चि. मार्ग मकान नं. 15 इसाक मोहम्मद के मकान से दक्षिण तरफ चलकर म.नं. 23 मुनवरबी के मकान तक ।

- विवरण -

- चंद्रशेखर आजाद मार्ग गली नं. 01 म.नं. 25 कासम फखरुद्दीन के मकान से डा. कैलाश माधव के मकान नं. 35 तक एवं च.शे.आ.मार्ग सुपडीया भारूड के मकान नं. 180 से वाचका वली पीर की दरगाह तक । धार चि.मार्ग उमाशंकर पाटीदार के मकान नं. 13 से रिक्ता इंद्रजीत के मकान नं. 23 तक। पटेल मार्ग म.नं. 30/1 दुर्गेश पाटीदार के मकान से दाताहरी चौक में कैलाश मण्डलोई के मकान तक । म.गा.मार्ग राजेश लक्ष्मीकांत त्रिवेदी म.नं. 01 से राजेन्द्र गोपाल गुप्ता के मकान से जवाहर चौक शांती प्याऊ होते हुवे अब्दुल भाई बोहरा के मकान नं. 77 तक । श्रदानन्द मार्ग जेनुद्दीन अल्ली हुसैन के मकान नं. 78 से रासमंडल होते हुवे राम मंदीर के पास वाला पाटीदार के मकान तक । रमणलाल किशन सा के मकान नं. 01 से जोशी गली होते हुवे सुनील मांगीलाल पाटीदार के मकान नं. 36 तक

वार्ड क्रमांक 5— चंद्रशेखर आजाद वार्ड

- उत्तर में— कुक्षी नदी (कन्या परिसर) से धार चिखल्दा मार्ग बहारपुरा मस्जिद तक दोनो साईड की पट्टी
दक्षिण में— डोंगरगांव नगर सीमा तलावडी रोड उत्तर साईड की सम्पूर्ण पट्टी रामेश्वर कोरजी चौपडिया की पान की दुकान तक ।
पूर्व में— बहारपुरा मस्जिद चंद्रशेखर आजाद मार्ग उत्तर साईड की सम्पूर्ण पट्टी, अमृत रेवाल के मकान तक ।
पश्चिम में— कुक्षी नदी सीमा कुडदीगपुरा टापरे, संकल्प इंटरनेशनल स्कूल से धार चिखल्दा मार्ग फाटा तक दोनो साईड की पट्टी एवं उससे लगी कृषि भूमि ।

— विवरण —

धार चि.मार्ग कुक्षी नदी से पेट्रोल पंप, राजु कालोनी होते हुवे बहारपुरा मस्जिद तक ।
तलावडी रोड सती मंदिर से होते हुवे कमलेश नटवरलाल भावसार के मकान से रामेश्वर कांजी चौपडिया के मकान 49 तक ।
धार चि.मार्ग कैलाश भाई छगनलाल नामदेव के मकान नं. 187 से पुराना डी.पी.एस. स्कूल, न.प.कार्यालय, स्वामी नारायण मंदिर कन्या परिसर होते हुवे कुक्षी नदी तक ।
भीलट मंदिर के सामने संकल्प स्कूल के पास के समस्त मकान सरस्वती शिशु मंदिर तक ।

वार्ड क्रमांक 6— सैफिया वार्ड

- उत्तर में— मानकर मोहल्ला, बजरंग कालोनी तिलक मार्ग की पश्चिमी पट्टी पुलिस चौकी होते हुवे, चाचा अब्दुलरहमान के मकान तक ।
दक्षिण में— वार्ड क्रं. 7 की उत्तरी सीमा सैफिया उपमार्ग
पूर्व में— वार्ड क्रं. 8 की पश्चिमी सीमा, तिलक मार्ग तक ।
पश्चिम में— वार्ड क्रं. 4 की पूर्वी सीमा जवाहर चौक मार्ग ।

—विवरण—

चं.शे.आ. मार्ग शरीफ खां रहिम खां मकान नं. 24 से पुलीस चौकी तक ।
तिलक मार्ग मानकर मोहल्ला सलीम खा कमरुद्दीन के मकान नं. 38 से भुरीया खुमा के मकान होते हुवे पिछे शासकीय उचित मुल्य अनाज दुकान से महेश वदव के मकान तक एवं सम्पूर्ण बजरंग कालोनी गिरधारी खुराल के मकान से नारायण ब्रजवासी के मकान तक ।
चंद्रशेखर आजाद मार्ग कादर अली गुलाम अली के मकान किराणा दुकान म.नं. 133 से शिव मंदिर तक (मंगलवारीया)
गवली समाज धर्मशाला म.नं. 16/3 से नजमुद्दीन कय्युम भाई चक्की वाले के मकान नं. 24 तक
श्रद्धानंद उपमार्ग जोशी गली धना पानवाले के मकान से नारायण भील्या के मकान नं. 42 तक
श्रद्धानंद मार्ग मांगीलाल सोनी के म.नं. 43 से कुतुब मास्टर के मकान नं. 57/1 तक

वार्ड क्रमांक 7- जवाहर वार्ड

उत्तर में-	वार्ड क्रं. 4, 6, एवं वार्ड क्रं. 8 की दक्षिणी सीमा तिलक मार्ग
दक्षिण में-	वार्ड क्रं. 12 की उत्तरी सीमा होते हुए, वार्ड क्रं. 11 की पश्चिमी सीमा तक ।
पूर्व में-	वार्ड क्रं. 8 की दक्षिणी सीमा तक एवं वार्ड क्रं. 11 की पश्चिमी सीमा तक
पश्चिम में-	जवाहर चौक, दाताहरि चौक मार्ग, म.गा. मार्ग

- विवरण -

तिलक मार्ग बाबुलाल केशरीमल जैन म. नं. 01 से रमेश भानाजी के मकान नं. 36 तक ।
 चं.शे.आ.मार्ग गली नं. 01 मकान नं. 1 रमेशबाला कहार के मकान से खुजेमा कुतुब बोहरा के मकान नं.16/2 तक
 सैफीया मार्ग मछली दरवाजे के अन्दर बाकीर भाई मुर्तजा भाई के मकान नं. 15 से अली हुसेन सादक अली के मकान नं. 18 तक ।
 सैफिया मार्ग गली नं. 01 जरीनाबाई इब्राहीम बोहरा के मकान से बोहरा समाज मस्जिद होते हुवे कुतुबुद्दीन इसुफ अली बोहरा के मकान नं. 14 तक । दोनों तरफ
 सैफिया मार्ग गली नं. 04 जेनुद्दीन कादर अली बोहरा के मकान नं. 01 से फखरुद्दीन एहमद अली बोहरा के मकान नं. 6 तक ।
 श्रद्धानंद मार्ग मनीष शांतिलाल जैन के मकान नं. 67 से प्रकाश डुगरवाल के मकान नं. 71 तक (जवाहर चौक)
 म.गा.मार्ग दिनेश जवेरी म.नं. 42 से आनंदीलाल केशरीमल म.नं. 62 तक
 कमल कुमार गुप्ता म.नं. 203 से न.प.सब्जी मार्केट जवाहर चौक होते हुवे दाताहरी चौक अविनाश गुप्ता के मकान नं. 266 तक एवं सुभाष मार्ग विकास (बंटी) के मकान तक
 मुखर्जी मार्ग दिलीप गणपत राठोड के मकान नं. 14 से यासीन जी के मकान नं 44 तक ।
 महाराणा प्रताप मार्ग कालु गोपाल राठोड के मकान नं. 14 से जैन समाज धर्मशाला म.नं. 26 तक ।
 संतोषीलाल छगनलाल म.नं. 01 से संतोष सिर्वी के मकान नं. 07 तक ।
 महाराणा प्रताप मार्ग गली नं. 01 हतरीबाई नाथाजी के मकान से आईमाता मंदिर होते हुवे बाबुलाल गोमाजी के मकान नं. 20 तक ।
 महाराणा प्रताप मार्ग गली नं. 02 मकान नं. 01 किशन बुदा के मकान से रामाजी केशाजी के मकान नं. 16 तक ।
 म.गा.मार्ग ओसवाल धर्मशाला जैन मंदिर के पिछे की साईट म.नं. 16 तक
 मुखर्जी मार्ग हनुमान मंदिर से सूर्यकांत-पंढरीनाथ गुप्ता के म.नं.13 तक

वार्ड क्रमांक 8- तिलक वार्ड

उत्तर में-	वार्ड क्रं. 9 की सीमा, मानकर मोहल्ला भाग-2 से स्वर्णकार धर्मशाला तक ।
दक्षिण में-	वार्ड क्रं. 11 की उत्तरी भाग, महात्मागांधी मार्ग तक ।
पूर्व में-	महात्मागांधी मार्ग
पश्चिम में-	तिलक मार्ग गली नं. 2, व 3, एवं गली नं.4 तथा वार्ड क्रं .06 की पूर्वी सीमा तक

— विवरण —

मानकर मोहल्ला तिलक मार्ग उमेश हरी भाई तेल्या के मकान से स्वर्णकार धर्मशाला होते हुवे।
 च.शे.आ.मार्ग जज साहब का बंगले से होते हुवे पिछे झमराल मोहल्ले के समस्त मकान एवं धनराज देवीलाल के मकान नं. 29 तक होते हुए शिवाजी मार्ग भीमालाल देवीलाल के मकान नं. 30 से नर्मदा शंकर के मकान 35/3 तक ।
 तिलक मार्ग मंगलवारीया बावडी से घंटाघर होते हुवे मनोहरलाल जैन पूर्व जनता स्टोर्स म.नं.130 तक म.गा.मार्ग पुनम स्टोर से युवराज खेमचंद जैन के मकान नं. 89 एवं अतुल जैन के मकान 01 शिवाजी मार्ग होते हुवे शंकर भाई लक्ष्मण के मकान 28 तक
 च.शे.आ.मार्ग बाबुलाल हुकमीचंद सोनी के मकान से बद्रीलाल भीमाजी के मकान (बावडी तक)
 शिवाजी मार्ग गली नं. 01 सुनीता राजेन्द्र डुगरवाल के मकान न. 02 से होते हुवे लक्ष्मण धन्नालाल सेन के मकान नं. 08 तक (दोनो साईट)
 शिवाजी मार्ग प्रदीप जैयचंद के मकान 52/1 से राजु सम्पतीलाल के मकान नं. 78 एवं म.गा.मार्ग कमल जैन के मकान नं. 92 तक
 तिलक मार्ग गली नं. 01 सुरेशचंद बडजात्या के मकान 01 से मैनाबाई रूपा के मकान 07 तक ।
 तिलक मार्ग गली नं. 02 लक्ष्मीनारायण किशोरीलाल दसोरा के मकान नं. 01 से हरिश रामनाथ सोनी के मकान नं. 17 तक एवं मनीष धनराज सोनी के मकान नं. 18/1 से महेश भागीरथ सोनी के मकान नं. 28/4 (दोनो साईट) तक
 तिलक मार्ग गली नं. 03 सैफुद्दीन ताहैर अली के 2/1 मकान से शेखर ब्रजवासी के मकान नं. 04 तक (दोनो साईट)
 तिलक मार्ग गली नं. 4 पिस्ताबाई मांगीलाल सोनी के मकान 1/3 से न.प. का पुराना नेहरू बाल विद्या मंदीर एवं बालकृष्ण गुप्ता के मकान नं. 12 तक ।

वार्ड क्रमांक 9— शिवाजी वार्ड

उत्तर में— झिकरीबयडी के सम्पूर्ण मकान कुक्षी नदी की सीमा तक ।
 दक्षिण में— म.गां.मार्ग की उत्तरी पट्टी तक वार्ड कं. 10 की सीमा तक ।
 पूर्व में— कापसी नदी सीमा तक ।
 पश्चिम में— वार्ड कं. 08 की सीमा ।

— विवरण —

बयडीफल्या चैनसिंह चौकीदार के मकान से सम्पूर्ण बयडीफल्या शिवाजी मार्ग प्रेमबाई भीलाजी के मकान नं. 36/1 से राखी निर्मल सोनी के मकान नं. 51 एवं म.गा.मार्ग गली नं. 01 शोभाराम गणपत ब्रजवासी के मकान नं. 01 से मोतीराम सिर्वी के मकान तथा केशव भगवान के मकान नं. 28 तक

नारायण गोविन्द भारूड के मकान नं. 29 से ताराचंद खेमाजी के मकान नं. 38/2 तक ।
 म.गा.मार्ग राकेश मनोहरलाल जैन मकान नं. 93/1 से सुतार मोहल्ला पानी की टंकी के पिछे के समस्त मकान, व्यायाम शाला एवं पिछे के समस्त भवन मंगलम पेट्रोल पंप होते हुवे नदी तक ।
 झिकरी बयडी दशरथ भगतसिंह के मकान, आगनवाडी से सम्पूर्ण झिकरी बयडी

वार्ड क्रमांक 10 – पूर्वी वार्ड

- उत्तर में— मनावर रोड दक्षिणी पट्टी सम्पूर्ण कुक्षी नदी तक ।
 दक्षिण में— सीतलामाता रोड
 पूर्व में— कुक्षी नदी वार्ड क्रं. 13 की सीमा तक ।
 पश्चिम में— सिंधाना मनावर रोड एवं म.गां. मार्ग संगम तिराहा, सम्पूर्ण हरिजन कालोनी, बारूट फलिया का सम्पूर्ण भाग ।

– विवरण –

म.गा.मार्ग सुतार मोहल्ला (तिराहा) मोड से धन्नालाल बर्फा के मकान नं. 175/1 से कुक्षी नदी तक ।

हरीजन कालोनी मनीष रणछोड के मकान नं. 01 से ओंकारलाल हुकमाजी के मकान नं. 44 तक एवं मांगीलाल भीमाजी के मकान नं. 46/1 से उदव जोगडीया के मकान 73/14 तक (दोनो साईट) कैलाश मुरार के मकान से तुकाराम कालुराम के मकान तक एवं राजेश राजाराम के मकान से घीसालाल के मकान तक

राणा सांगा मार्ग दिलीप मकुन्द सा के मकान नं. 01 से किशोर कुमार मन्नाजी (सांवरिया काम्पलेक्स तक) राणा सांगा मार्ग पहली गली शंकर गोमाजी गेहलोत के मकान से शंकर घीसाजी के मकान एवं बालकृष्ण परसाई की फेक्ट्री तक एवं परसराम सिर्वी के मकान से कैलाश परिहार एडवोकेट के मकान तक (दोनो साईट)

राणा सांगा मार्ग (दुसरी गली) अशोक भीमाजी भायल के मकान से निर्मलाबाई गंगाराम के मकान तक एवं कैलाश मांगीलाल के मकान से सिताराम कैशाजी के मकान तक
 सीतलामाता रोड राजेश सिर्वी के मकान से सम्पूर्ण आई धाम कालोनी, सीतलामाता मंदिर, सात्या जैराम के मकान नं. 50 लक्ष्मी टाईल्स फेक्ट्री होते हुवे नदी तक

सम्पूर्ण बारूट फलिया एवं मुकेश खुमसिंह के मकान नं. 30 से सीतलामाता पानी की टंकी होते हुवे कैलाश कनसिंह के मकान नं. 51 तक एवं पानी की टंकी के पिछे के समस्त मकान एवं सावरिया काम्पलेक्स के पिछे के समस्त मकान

वार्ड क्रमांक 11– भगतसिंह वार्ड

- उत्तर में— वार्ड क्रं. 8 की सीमा होते हुए म.गांधी मार्ग तक ।
 दक्षिण में— मुखर्जी मार्ग उत्तर साईड के म. नं. 45 हाफीज अब्दुल शकुर कस्साब के मकान से पूर्व तरफ चलकर म.नं. 64 राधेश्याम रामनारायण के मकान तक एवं भगतसिंह उपमार्ग के उत्तर साईड के म.नं. 18 काना गोमा के मकान से पूर्व तरफ चलकर लोणी दरवाजे तक ।
 पूर्व में— राणासांगा मार्ग पश्चिम साईड दक्षिण के मकान नं. 1 मुकुन्द से उत्तर तरफ चलकर म.नं. 20 पुनाजी तक ।
 पश्चिम में— महाराणा प्रताप मार्ग गली नं. 1 के उत्तर पूर्वी कोने के मकान नं. 21 रमणलाल रमेशचंद्र जैन के कोठार से दक्षिण तरफ म.नं. 59 हरजी लूणा के मकान तक एवं महाराणाप्रताप मार्ग पूर्व साईड म.नं. 3 कलाजी बोंदरजी से दक्षिण तरफ चलकर म.नं. 13 वाहीद कस्साब के मकान तक ।

-विवरण-

म.गा.मार्ग मथुरीबाई मदनलाल राठोड म.नं. 176 से कैलाश मन्नालाल मण्डलोई के म.नं. 202 तक
 मुखर्जी मार्ग इकबाल कुरेशी मकान नं. 45 से राधेश्याम रामनारायण ढोली के मकान नं. 61 तक
 मुखर्जी मार्ग गली नं. 01 आलम के मकान नं.01 से अशोक भायल के मकान नं.06 तक (दोनो साईट)
 भगतसिंह उपमार्ग गली नं. 01 मोती भुराजी के मकान से पुनीबाई सुभान के म.नं. 24 लोणी दरवाजे तक।
 जगदीश फत्तु वर्मा के मकान 26 से याकुब एहमद हुसेन टेलर म.नं. 52 तक
 भगतसिंह उपमार्ग गली नं. 01 जय गोपाल सिर्वी म.नं. 2/01 से रामेश्वर राठोड के मकान नं. 9/1 तक
 पृथ्वीराज मार्ग पन्नालाल पुंजा के मकान नं. 01 से नारायण रमेश सिर्वी के मकान नं. 15 तक
 एवं झमुबाई हरजी म.नं. 16 से छोट्टु रामाधोबी के मकान नं. 43 तक
 महाराणा प्रताप मार्ग गली नं. आईमाता मंदिर के सामने पूर्व पार्श्वद कैलाश भायल के मकान नं. 22 से भुरा
 छितर के मकान नं. 32 होते हुवे ।
 मोती-धीसाजी सिर्वी के मकान नं. 33 से सिर्वी समाज भोजनशाला होते हुवे पीछे के समस्त भवन लेते हुवे
 ताराचंद-हरजी के मकान तक मकान नं. 59
 महाराणा प्रताप मार्ग कैलाश भायल के मकान नं. 8/1 से भीमाजी रतन डिस्कवाले के मकान नं. 11 तक
 राणासांगा मार्ग लोणी दरवाजा हलाव हरिलाल-कालु के मकान नं. 01 से भुरालाल-पुनाजी के मकान नं. 20
 तक

वार्ड क्रमांक 12 - लालबहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर में- मुखर्जी मार्ग दक्षिण साईड के दक्षिण पूर्वी कोने के म.नं. 65 दीतूलाल-नत्थूलाल धोबी के
 मकान से म.नं. 158 महेशचंद्र-रमेशचंद्र गुप्ता के मकान तक एवं मुखर्जी मार्ग उत्तर साईड के
 उत्तरी पूर्वी कोने के म. नं. 13 पंढरीनाथ गुप्ता के मकान से पश्चिम तरफ चलकर म.नं. 1
 हनुमान मंदिर तक ।
- दक्षिण में- सम्पूर्ण भट्टी मोहल्ला एवं वार्ड कं.02 की पूर्वी सीमा होते हुए रंगारा मोहल्ला मस्जिद का
 दक्षिणी भाग ।
- पूर्व में- लोणी दरवाजा सिंघाना मनावर रोड वार्ड कं. 10 की सीमा ।
- पश्चिम में- सुभाष मार्ग गली नं. 03, वार्ड कं. 02 की सीमा (गली नं. 5 के सम्पूर्ण भवन छोड़कर)

- विवरण -

लोणी दरवाजा दितुलाल मकान नं. 65 से रामदेवजी मंदिर होते हुवे सुनीलकुमार-लक्ष्मीनारायण गुप्ता(आटा
 चक्की) तक मकान नं. 170 तक
 मुखर्जी मार्ग गली नं. 02 भट्टी मोहल्ला मोहम्मद-सुल्तान रंगारा मकान नं. 02 से शंकरलाल-धन्नालाल
 ढोली के मकान तक
 मुकेश पिता रमेश ढोली के मकान से स्लाटर हाउस, इल्यास का कुआं एवं मदन नुरख्या के मकान तक
 (दोनो साईट)
 महेश पिता सुरेश चमार के मकान से नवीन बंशीलाल गौतम के मकान तक
 मुखर्जी मार्ग ग.न. 03 अनोखीलाल मगनलाल के मकान 01 से शिवलाल राठोड के मकान तक दोनो साईड।
 मुखर्जी मार्ग ग.न. 04 कैलाश रतनलाल मिस्त्री के म.नं. 1/1 से रामा माली के कोठार म.नं. 16/1 तक
 प्रेमकुमार-अशोककुमार माली से हेमन्त-रतनलाल मिस्त्री के मकान नं. 27 तक

वार्ड क्रमांक 13 – आनंद वार्ड

- उत्तर में— नाले की सीमा (भट्टी मोहल्ले को छोड़कर) आनंदगंज मण्डी, शिवकॉटन कृषि उपज मण्ड तक ।
- दक्षिण में— भैरव नगर, भिलट मंदिर खण्डवा बडौदा राजमार्ग की सीमा ।
- पूर्व में— हीरा पेल्लेस, निमाड केम्ब्रीज स्कूल, खेरखोदरा, हुसैन टेकरी तक
- पश्चिम में— वार्ड क्रं. 14 एवं 15 की सीमा धार चिखल्दा मार्ग, म.नं. 46 शापिंग काम्पलेक्स से दक्षिण तरफ से चलकर रमेशचंद्र-भीमाजी के मकान तक, भिलट मंदिर, साक्षी हास्पिटल सम्पूर्ण भैरव नगर

– विवरण –

हिरा पैलेस के पीछे के समस्त भवन एवं गणगौर मैरिज गार्डन, नवीन कालोनी के समस्त भवन सिंघाना-मनावर रोड, किशोर-मंगाजी(पामिला रेस्टोरन्ट) से निमाण केम्ब्रीज स्कूल, धार-चिखल्दा मार्ग, मारुति सुजुकी शो-रूम, एवं खेरखोदरा के समस्त भवन व हुसैन टेकरी के समस्त भवन (दोनों साईट) धार-चिखल्दा मार्ग चन्द्रशेखर आजाद कॉम्प्लेक्स से विजय स्तम्भ चौराहा होते हुवे रामेश्वर गुप्ता (रॉयल प्लायवुड) के मकान तक

मौलाना आजाद मार्ग निर्मल-मगनलाल रावल के मकान नं. 01 से हिरालाल-मावजी पाटीदार के मकान नं. 25 तक

कांतीकुमार जैन के मकान नं. 26/1 से युवराज-खेमचंद जैन के मकान नं. 41 तक

भैरव नगर कृष्णहरि-मगनलाल भावसार के मकान से हरिनारायण मोदी के मकान तक समस्त भैरव नगर अन्नपूर्णा कालोनी नरेन्द्र-सुखदेव भावसार के मकान नं. 41/1 से महेश-बाबुलाल राठौड के मकान तक दोनों तरफ दोनों साईट सम्पूर्ण अन्नपूर्णा कालोनी पुरानी कृषि उपज मण्डी, साई मंदिर एवं नई कृषि उपज मण्डी एवं सम्पूर्ण बुरहानी कालोनी नाले तक

वार्ड क्रमांक 14- गायत्री वार्ड

- उत्तर में— सहकारी विपणन संस्था सीसीपी
- दक्षिण में— गायत्री कालोनी, जोबट परियोजना, अवनि नगर, दूरदर्शन टावर, शंकर मंदिर, आजाद कालोनी एवं पानी की टंकी तक ।
- पूर्व में— बस स्टेण्ड अटल आडवाणी काम्पलेक्स, तालाब फलिया, गायत्री मंदिर
- पश्चिम में— सिंचाई संभाग कार्यालय आवास गृह

– विवरण –

शास.महाविद्यालय के आगे नगरीय सीमा धार-चिखल्दा मार्ग, ताहेरी मंजिल खंडवा बडौदा राजमार्ग के पश्चिम साईड के सम्पूर्ण भवन, बैंक ऑफ बडौदा गायत्री मंदिर, बस स्टेण्ड होते हुवे नारायण पुरुषोत्तम घडी वाले के मकान नं. 121 तक विजय स्तम्भ चौराहा

गायत्री कालोनी, छाया-अशोक अग्रवाल के मकान से ओमप्रकाश नवाल कालोनी होते हुवे नवीन कालोनी एम.पी.ई.बी., तथा नवीन कालोनी के सम्पूर्ण भवन

मुकामसिंह किराडे के भवन से मध्य प्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण कार्यालय, मनोज दुबे के मकान तक तथा कमल अग्रवाल के मकान एवं पास के समस्त टापरे एवं सम्पूर्ण गायत्री कालोनी के भवन एवं सम्पूर्ण अवनि नगर

जोबट परियोजना कालोनी, गणेश मंदिर सिंचाई कालोनी, शनि मंदिर, निलकंठ महादेव मंदिर दुरदर्शन टावर समस्त आजाद कालोनी तेहसील कार्यालय के सामने पानी की टंकी तक एवं टंकी के पास समस्त टापरे बस स्टेण्ड के पीछे तलाबफाल्या केशरसिंह-तेरसिंह के मकान नं. 19 से संपूर्ण तालाबफाल्या के टापरे, एवं गायत्री सरोवर

वार्ड क्रमांक 15- डाक बंगला वार्ड

- उत्तर में- वार्ड क्रं. 01 लक्ष्मी कालोनी की सीमा नाला
दक्षिण में- खण्डवा बडौदा राजमार्ग की दक्षिणी पट्टी, न्यायालय, पशु चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छात्रावास
पूर्व में- एस.डी.ओ. पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय
पश्चिम में- जति फल्या, तहसील, गैस गोडाउन, न.प.सम्पवेल, सनन कॉटन

- विवरण -

परियोजना प्रशासक आवास से तहसील कार्यालय, गैस गोडाउन, सनन कॉटन, धनरत्न विहार कालोनी के सम्पूर्ण भवन ।

महेश-नन्दकिशोर मिस्त्री के मकान नं. 01 से बालक छात्रावास हॉस्पिटल एवं पीछे क्वार्टर एवं न्यायालय, हिरा एण्ड संस इण्डियन पेट्रोल पंप आगे न.प.सीमा तक

जतिफाल्या कैलाश टिम्बर आरामशीन के पास के टापरे होते हुवे दारू गोदाम तक

एवं रोहित-कांतिकुमार जैन के मकान से अशोक-गंगाराम सुगंधी के मकान नं. 166 तक

कोली मोहल्ला के संपूर्ण भवन एवं टापरे

डाक बंगला के पीछे के समस्त भवन

व जनपद कार्यालय के पीछे के समस्त क्वार्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

धार, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 2088-परिसीमन-धार-2017.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2087-परिसीमन-धार-2017, दिनांक 13 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

Bhopal, the 13th February, 2017

No. 2087.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Parishad Kukshi as per Schedule given below :—

SCHEDULE

Serial no. of wards and their names:

Ward No.	Name of ward	Ward No.	Name of ward
1.	Paschimi Ward	9.	Shivaji Ward
2.	Kidwai Ward	10.	Poorvi Ward
3.	Subhash ward	11.	Bhagat Singh Ward
4.	Sardar Patel Ward	12.	Lal Bahadur Shastri Ward
5.	Chandra Shekhar azad Ward	13.	Anand Ward
6.	Saifiya Ward	14.	Gayatri Ward
7.	Jawahar Ward	15.	Dak Bungalow Ward
8.	Tilak Ward		

Ward No. 01 : Paschimi Ward

North : From Boarding House Via Gaud Brahmin Society dharmshala H.No. 166, Laxmi Colony, Prakash Nagar, Bhuvneshwari Colony & Whole Open Land including Whole Jabran Colony.

South : From Old Idgah H.No. 123 To Maksud Ali H.No. 147/1.

East : Via The Boundaries Of Ward No. 2 & 3, up to Boundary Of Ward No. 13.

West : From Municipal Owned Ramchandra Mistri Shop Ro.160 To H.No. 17 Leased Nanuram – Mohanlal Building.

Description

Boarding house Shri Gaud Bramhan Samaj Dharmshal to Laxmi Colony, via Prakash Nagar Bhuwneshwar Colony up to Mohanlal Buda Patidars House No. 166/1.

Old Idgah (Vijay Sthambh) to, Maksud Ali's House No. 147 at Dhar Chiklda Marg.

Jabaran Colony Ramnarayan Mistri's House to Yusuf hamid's House and continue up to both side of Hukum Rajput's House at Jabaran Colony Part- 1.

Maqsud Ali Khan's House No 147 at Jabaran Colony to Ramesh Chilu's House, and both side of Sheru Bhai Abbas's House No 8 to Mansaram Nanuram Rathore's House at Jabaran Colony Part-2.

Maksud Ali's House to Boarding House in front of Police Station via House of Govt. Girls H.S. School Ground at Dhar Chikhalda Marg.

Ward No. 02 : Kidwai Ward

North : Boundary of WARD No. 03 Subhash marg gali no.3 upto house of Ranchhod Baboolal.

South : From Ward No. 13 Boundary, South West Of Subhash Marg To eastern side upper bank of nallah.

East : Form Western Boundary Of WARD No. 12, up to Subhash Marg Street No. 5 total buildings.

West : From Police Station running south up to Surya Talkies Cinema Choupati.

Description

Shop of Shantilal Sweets at Cinema Choupati to Kale Khan Pir Mohammad's House to via Shop of Sushil Bartan and both side of Liyaka Bhangar Wala's House to Hamid Khan Habib khan's house no 94.

Inayat Khan Habib Khan (Abid Collection) to Anil Kumar Laxminarayan Gupta's House no 62/1 at Subhash Marg.

Sarjeet Khan Nasrat Khan's House no. 02, Gali no 04, at Subhash Marg to Abdul s/o Abdul Rehman's house, Bhawaniram Balya's House to Inayat Khan Nasrat Khan's House No 21/1 via House No. 04.

Atul Jain's House No 01, Gali No 05 at Subhash Marg up to Ayub Bhangarwal's House No. 33 to via Jamil Mansuri's House.

Mehbub Kalu Shah's House No. 25/1 to via Surya Cinema Hall up to Salim Khan Masum Khan's House No 33 via Badpura Masjit.

Usman Vazir Khan's House No. 01 at Kidvai Upmarg up to Yusuf Khan Shafi Mohamad's House No. 30 behind Cinema Hall.

Nasir Gul Mohammad's House No. 31 at Kidvai upmarg up to both side of Bashir Khan Murani Mohammad's House no 52.

Rasid Bhai Panwale's House No. 02, Gali No. 02 at Subhash Marg up to Santoshilal Chhitar Sa's House No. 45 and Shailendra Laxman Rawat's House No. 15, Gali No. 03, at Subhash marg In front of Hanuman Mandir to CMO's Quarter.

Kutubuddin Nur Bhai Bohara's House No 34, Subhash Marg up to Ranchhoud Babulal Rathore's House.

Santoshilal Chhitar Sa's House No. 2/4, Gali No. 03 at Subhash Marg up to Shivji Korji's House No. 14.

Ward No. 03 : Subhash Ward

North : From H.No. 1 Mohanlal's Building on south side of Patel Marg to Western Side & Near Haud (cattle trough). Rameshwar Chhotu's shop to Padava Talawadi road's Whole Southern strip & up to Gabbu's buildings and police quarters, including police (parade) ground up to old Swami Narayan Temple Well Via Kamal Malka's building.

South : southern side of Subhash Marg gali no.3 house no. 51 of Mahendra, Suresh, Omprakash ,Kailash ,kishore s/oSitaram Sugandhi and up to H.No.21 of Bhagwan Buda on southern side of Subhash Marg gali no.3

East : From H. No. 34 on western side of Subhash Marg moving In northern direction to H. No. 57 Datahari Temple.

West : From H. No. 24 Of Ramesh Hira Patidar on northern side Of Dhar-Chikhaldia road towards south up to H. No. 42 of Someshwar.

Description

Mohanlal Narayan's House No. 01 at Patel Marg up to Dr. Anand Kumar Rajendra Kumar Patidar's House No. 29.

Babulal Hira Patidar's House No. 24 at Dhar Chikhaldia Marg up to Police Station Kukshi and Kamal Arjun's House up to Old Swami Narayn Mandir well via Police Ground.

Ramanlal Chhaganlal Rathore's House No. 3/1 at Talawadi Road to All house of Anita Hagriya's House side via Ashutosh Bhagwan Patidar's House at behind of Sirvi samaj Samadhi Sthal and all House of Aara machine side at Laxmi Colony from Ramesh Prajapt's House to Santosh Mangilal Parjapat's House.

Rakesh Bhagwan's House No. 21 to Hospital of Kailash Mukati's House No. 50 via Hauman Mandir and North side of Sugandhi's house, Laxmimata Mandir upto Mahendra Kumar Ambalal Patel's House.

Utsavlal Gupta's House No. 1/1, Gali No. 01 at Patel Marg up to Mohanlal Agrawal's House No. 01 and Patel Marg, Gali No. 02 via Dr. Umashankar Patidar's House No. 1 to Dharmshala of Dashora Panch's House No. 25/1.

Amrutlal Gupta's House via Lokesh Patidar's House no. 02 at Patel Marg and House No. 41/4 (Kothar) to House No. 38 (Both Side)

Patel Marg, Gali No 03, Kailash Bhagwan's House No. 2 to Bhima Dhur's House No 08 (Both Side)

Ward No. 04 : Sardar Patel Ward

North : From H. No. 25 at street No. 1 of Chandra Shekhar Azad Marg towards western side H. No. 33 of Madhav & from H. No. 80 of Supdiya at Chandra Shekhar Azad Marg up to Bachka Wali Pir Dargah.

South : From H. No. 30 of Durgesh kumar on west-north corner on northern side of Patel Marg moving In eastern direction up to H. No. 91 of Munnalal & from house of Laxmikant situated at west-north corner on northern side of M.G. road up to Porwad Panch H. No. 12 moving In eastern direction.

East : From Porwad Panch H. No. 12 At M.G. road Jawahar chowk via Shanti Pyau on moving towards north up to H. No. 81 of Abdul Bhai & whole Joshi Street up to Ras Mandal.

West : From H. No. 15 of Isak Mohammad towards southern side up to H. No. 23 Of Munnawar Bee.

Description

Kasam Fakhruddin's House No. 25, Gali No. 01 at Chandra Shekhar Azad Marg to Dr. Kailash Madhav's House No. 35 and Supdiya Bharud's House No. 180 at Chandra Shekhar Azad Marg up to Dargah of Wachka Wali Pir.

Umashankar Patidar's House No. 13 at Dhar Chikhalda Marg to Rikta Indrajeet's House No. 23.

Durgesh Patidar's House No 31/1 at Patel Marg to Kailash Mandloi's House at Datahari Chouk.

Rajesh Laxmikant Trivedi's House No. 01 at M.G. Marg to Abdul Bhai Bohara's House No. 77 via Rajendra Gopal Gupta's House to Jawahar Chouk Shanti Pyau.

Jenuddin Alli Husain's House No. 78 at Shradhanand Marg to Patidar's House near Ram Mandir Via Rasmandal.

Ramanlal Kishan Sa's House No. 01 to Sunil Mangilal Patidar's House No. 36 via Joshi Gali.

Ward No. 05 : Chandra Shekhar Azad Ward

North : From Kukshi river (Kanya Shiksha Parisar) up to Baharpura Maszid both Side strips.

South : From whole northern strip of Talawadi road up to Dongargaon village boundary to betel shop (Pan Dukan) of Korji Chopdiya.

East : Whole strip of northern side of Baharpura Maszid at Chandra Shekhar Azad Marg & up to house of Amrit Rewal.

West : Kurdig Pura huts at boundary of Kukshi river from Sankalp International School to Dhar-Chikhalda Fata both side strips & adjacent agricultural lands.

Description

Kukshi River at Dhar Chikhalda Marg to Baharpura Maszid via Petrol Pump & Raju Colony.

Kamlesh Natwarlal Bhavsar's House to Rameshvar Kanji Chopdiya's House No. 49 via Talawadi Road Sati Mandir.

Kailash Bhai Chhaganlal Namdev's House No. 187 at Dhar Chikhalda Marg to Kukshi River Via Old DPS School, Nagar Parishad office, Swami Narayan Mandir and Kanya parisar.

All house near the Sankalp School at in front of Bhilat Mandir till Saraswati Shishu Mandir.

Ward No. 06 : Saifiya Ward

North : Western strip of Tilak Marg, Bajrang colony, Mankar Mohalla up to house of Abdul Rehman Chacha via old Police Chowki.

South : Northern boundary of WARD No. 7, Saifiya Upmarg

East : Western boundary of WARD No. 8 up to Tilak Marg

West : Eastern boundary of WARD No. 4 Jawahar Chowk Marg

Description

Sharif Khan Rahim Khan's house No. 24 at Chandra Shekhar Azad marg to Police Station.

Salim Khan Kamruddin's House No. 38 at Tilak Marg Mankar Mohall to Mahesh Yadav's House via Bhuriya Khuma's House Behind of Govt. Uchit Mulya Anaz Shop and All Bajrang Colony till Girdhari Kural's House to Narayan Brajwasi's House.

Kadar Ali Gulam Ali's House No.133 Kirana shop at Chandra Shekhar Azad Marg to Shiv Mandir (Mangalwariya)

Gavali Samaj Dharmshala's House no. 16/3 up to Najmuddin Kyyum Bhai Chakkiwala's House No. 24

Dhana Panwala's House at Joshi Gali, Shradhanand Upmarg to Narayan Bhilya's House No. 42.

Mangilal Soni's House No. 43 at Shradhanand Marg to Kutub Mastar's house No. 57/1.

Ward No. 07 : Jawahar Ward

North : Southern boundary of WARD No. 4, 6 & 8 Tilak Marg

South : Through Northern border of WARD No. 12 & up to Western Boundary of WARD No. 11

East : Up to southern boundary of WARD No. 8 & up to western boundary of WARD No. 11

West : Jawahar Chowk, Datahari Chowk Marg, M.G. road.

Description

Babulal Kesharimal Jain's House No. 01 at Tilak Marg to Ramsh Bhanaji's House No. 36.

Rameshbala Kahar's House No. 01, Gali No. 01 at Chandra Shekhar Azad Marg to Khujema Kutub Bohara's House No. 16/2

Bakir Bhai Murtaja Bhai's House No. 15, Inside of Machchhi Gate at Sefiya Marg to Ali Husain Sadak Ali's house No. 18

Jarinabai Ibrahim Bohara's House, Gali No. 01 at Sefiya Marg to Kutubuddin Isuf Ali Bohara's House No. 14 via Bohara Samaj Masjid. Both Side of Sefiya Marg Gali No. 04 Jenuddin Kadar Ali's House No. 01 to Fakharuddin Ahamad Ali Bohara's House No. 06

Manish Shantilal Jain's House No. 67 at Shardhanand marg to Prakash Dungalwal's House No. 71 (Jawahar Chouk)

Dinesh Javeri House No 42 at M.G. Marg to Anandilal Kesharimal's House No. 62 and Kamal Kumar Gupta's House No. 203 to Avinash Gupta's House No. 266 at Datahari Chouk via N.P. Sabji Market at Jawahar chouk up to Subhash Marg, Vikas (Banti)'s House.

Dilip Ganpat Rathore's House No. 14 at Mukharji Marg to Yasin ji's house No. 44.

Kalu Gopal Rathore's House No. 14 at Maharana Pratap Marg to Jain Samaj Dharmshala's house No. 26.

Santoshilal Chhaganlal's House No. 01 to Santosh Sirvi's house No. 07

Hataribai Nathaji's House, Gali No. 01 at Maharana Pratap marg to Babulal Gomaji's House no. 20 via Aai Mata Mandir.

Kishan Buda's House No. 01, Gali No. 02 at Maharana Pratap Marg to Ramaji Keshaji's House No. 16.

M.G. Marg till House No. 16 at Auswal Dharmshala, behind Jain Mandir.

Hanuman Mandir at Mukharji Marg to Suryakant Pandrinath Gupta's House No. 13

Ward No. 08 : Tilak Ward

North : Boundary of WARD No. 9, from Mankar Mohalla part II to Swarnkar Dharshala.

South : Northern part of W, No. 11 up to M.G. road.

East : Mahatma Gandhi marg.

West : Tilak Marg Gali No. 2&3, & Gali No. 4 & up to eastern boundary of WARD No. 6.

Description

Mankar Mohall, Tilak Marg, Umesh Hari Bhai Telya's House to via Swarnkar Dharamshala

Chandara shekhar Azad Marg via behind of Magistrate's House Jhamral Mohall's all house and till Dhanraj Devilal's House No. 29 to Shivaji Marg.

Bhimalal Devilal's House No. 30 to Narmada Shankar's House No. 35/3

Tilak Marg Mangalwariya Bavadi to Manoharlal Jain, Old Janta Store's house No. 130 via Ghantaghar.

M.G. Marg, Punam Store to Yuvraj Khemchand Jain's House No 89 and Atul Jain's House No. 01, via Shivaji Marg to Shankar Bhai Laxman's House No. 28.

Babulal Hukmichand Soni's house at Chandra Shekhar Azad Marg to Badrilal Bhimaji's House (till Bavadi).

Shivaji Marg, Gali No. 01 via Sunita Rajendra Dungarwal's House No. 02 to Laxman Dhannalal Sen's house No. 08 (Both Side)

Shivaji Marg, Pradip Jaiychand's House No. 52/1 to Raju Sampatilal's house No. 78 and M.G. Marg, till Kamal Jain's House No. 92

Tilak Marg, Gali No. 01, Sureshchandra Badjatya's House No. 01 to Mainabai Rupa's house No. 07

Tilak Marg, Gali no. 02 Laxminarayan Kishorilal Dasora's House No. 01 to Harish Ramnath Soni's House No. 17 and manish Dhanraj Soni's House No. 18/1 to Mahesh Bhagirath Soni's House No.28/4 (Both Side).

Tilak Marg, Gali No. 03 Saifuddin Tahair Ali's house No. 2/1 to Shekhar Brajwasi's house No. 04 (Both Side)

Tilak Marg, Gali No. 04 Pistabai Mangilal Soni's House No. 1/3 to N.P.'s Old Neharu Bal Vidhya Mandir and Balkrishan Gupta's House No. 12.

Ward No. 09 : Shivaji Ward

North : All houses of Zhikari Bayadi up to boundary of Kukshi river.

South : Up to northern strip of M.G. Road & up to border of WARD No. 10

East : Up to boundary of Kapsi river.

West : Boundary of WARD No. 8.

Description

Bayadi Faliya Chainsingh Choukidar's house to All Bayadi Faliya, Shivaji Marg Prembai Bhilaji's House No. 36/1 to Rakhi Nirmal Soni's House No. 51 and M.G. Marg, Gali No. 01 Shobharam Ganpat Barjwasi's house No. 01 to Motiram Sirvi's house and Keshav Bhagwan's House No. 28

Narayan Govind Bharud's house No. 29 to Tarachand Khemaji's House No. 38/2

M.G. Marg Rakesh Manoharlal jain's House No. 93/1 to Sutar Mohalla's All house behind water tank, Vyayam Shala and behind all house-till River via Mangalam Petrol pump.

Jhikri Baydi Dashrath Bhagatsingh's House, Aanganwadi to All Jhikri Baydi.

Ward No. 10 : Poorvi Ward

North : Whole south strip of Manawar road up to Kukshi river boundary.

South : Sitla Mata road.

East : Up to boundary of WARD No. 13 To Kukshi river.

West : Junction triangle of Manawar-Singhana road & whole Harijan colony and whole Barut Falya.

Description

M.G. Marg, Sutar Mohalla (Square) Turn to Dhannalal Barfa's House No. 175/1 till Kukshi River.

Harijan Colony Manish Ranchoud's House No. 01 to Onkarlal Hukmaji's House No. 44 and Mangilal Bhimaji's House No. 46/1 to Udav Jogdiya's House No. 73/14 (Both Side)

Kailash Murar's House to Tukaram Kaluram's house and Rajesh Rajaram's House to Ghisalal's House.

Rana Sanga Marg Dilip Makund Sa's House No. 01 to Kishore Kumar Mannaji (to Sawariya Complex)

Rana Sanga Marg, First Street, Shankar Gomaji Gehlot's House to Shankar Ghisaji's House & till Balkrishna Parsai's Factory and Parsram Sirvi's House to Kailash Parihar Advocate's House (Both Side).

Rana Sanga Marg (Second Street) Ashok Bhimaji Bhaya's House to Nirmalabai Gangaram's House and Kailash Mangilal's house to Sitaram Kailashji's House.

Sitalamata road Rajesh Sirvi's House till River Upto whole Barut Falya via All Aai Dham Colony, Sitalamata Mandir, Satya Jairam's House No. 50, Laxmi Tails Factory

Mukesh Khumsingh's House No. 30 via Sitalamata water tank to Kailash Kansingh's House No. 51 and behind water tank all house and behind Sawariya Complex all house.

Ward No. 11 : Bhagat Singh Ward

North : Boundary of WARD No. 8 to M.G. road.

South : From house no. 45 of Hafiz Abdul Shakur on northern side of Mukharji Marg & from here moving on eastern side up to H. No. 64 of Radheshyam Ramnarayan & from house No. 18 of Kana Goma on the northern side of Bhagatsingh Upmarg to Loni Gate Via Eastern Side.

East : From House no. 1 of Mukund on western side of Rana Sanga Marg south corner to H. No. 20 Of Punaji.

West : From H. No. 21 (Kothar) of Ramlal Rameshchandra Jain on north-east corner of Maharana Pratap marg Gali No. 1 toward southern side up to H. No. 59 of Kalaji Bondarji on east side of Maharana Pratap Marg to H. No. 13 of Wahid Kassab via southern route.

Description

M.G. Marg Mathuribai Madanlal Rathore's House No. 176 to Kailash Mannalal Mandloi's House No. 202

Mukharji Marg Ikbal Kureshi's House No. 45 to Ratheshyam Ramnarayan Dholi's House No. 61

Mukharji Marg Gali No. 01 Alam's House No. 01 to Ashok Bhayal's House No. 06 (Both side)

Bhagatsingh Upmarg Gali No. 01 Moti Bhuraji's House to Punibai Subhan's House No. 24, till Loni Gate.

Jagdish Fattu Verma's House No. 26 to Yakub Ahemad Husain Teller's House No. 52 to Bhagat singh Upmarg Gali No. 01 Jay Gopal Sirvi's House No. 2/01 to Rameshwar Rathore's House No. 9/1

Pruthaviraj Marg Pannalal Punja's House No. 01 to Narayan Ramesh Sirvi's House No. 15 and Jhumbai Harji H.No. 16 to Chhotu Ramadhobi's H.No. 43

Maharana Pratap Marg Gali No. In front of Aai Mata Mandir , Old Prashad Kailash Bhayal's House No. 22 to via Bhura Chhitar's House No. 32.

Moti-Ghisaji Sirvi's house No. 33 to Tarachand Harji's House via Sirvi Samaj Bhojanshala with behind all building, House No. 59 Marana Pratap Marg, Kailash Bhayal's House No. 8/1 to Bhimaji Ratan Diskwala's House No. 11

Rana Sanga Marg Loni Gate, Halav Harilal Kalu's House No. 01 to Bhuralal Punaji's House No. 20

Ward No. 12 : Lal Bahadur Shasrti Ward

North : From H. No. 65 of Ditulal Nathulal at south-east corner of southern side of Mukharji Marg to H. No. 158 of Maheshchandra Rameshchandra Gupta from H. No. 13 of Pandrinath Gupta on northern corner at northern side of Mukharji Marg to H. No. 1 Hanuman Temple by

South : Total Bhatti Mohalla & boundary of Ward No. 02 to southern part of Rangara Mohalla Maszid.

East : Boundary of WARD No. 10 up to Loni Darwaja at Singhana-Manawar road .

West : Boundary of WARD No. 2 at Shubhas Marg Gali No. 03 (excluding all the houses of Gali No. 05)

Description

Loni Gate Ditulal's House No. 65 via Ramdevji Mandir to Sunil Kumar Laxminarayan Gupta's (Aata Chakki) house no. 170.

Mukharji Marg Gali No. 02 Bhatti Mohalla Mohammad Sultan Rangara's House No. 02 to Shankarlal Dhannalal Dholi's House.

Mukesh s/o Ramesh Dholi's house to Slater House, Well of Iliyas and house of Madan Nurkhya (both side)

Mahesh S/o Suresh Chamar's House to Navin Banshilal Goutam's House.

Mukharji Marg Gali No. 03 Anokhilal Maganlal's House No. 01 to Shivilal Rathore's House both side.

Mukharji Marg Gali No. 04 Kailash Ratanlal Mistri's House no. 1/1 to Rama Mali's Store House No. 16/1

PremKumar Ashok Kumar Mali up to Hemant Ratanlal Mistri's House No. 27.

Ward No. 13 : Anand Ward

North : Boundary of Bhatti Mohalla Nallah (excluding Bhatti Mohalla) Anand Ganj Mandi, Shiv Cotton up to Krishi Upaj Mandi Samiti.

South : Bhairv Nagar, Bhilat Mandir & up to boundary of Khandva-Baroda S.H.

East : Hira Palace, Nimar Cambridge School, Khair Khodra & up to Husain Tekari.

West : At Dhar-Chikhhalda Marg boundary Of H. No. 14&15 From H. No. 46 Shopping Complex to house of Bhimaji of via southern route including Bhilat temple Sakshi hospital and whole Bhairav Nagar.

Description

All building behind Hira Palace and Gangour Mari's Garden, New colony all building.

Singhana Manawar Road, Kishor Mangaji (Pamila Restaurant) to Nimad Cambridge School, Dhar Chikhhalda Marg, Maruti Suzuki Showroom and Kherakhodra's all building & Husain tekari's all building (both side)

Dhar- Chikhhalda Marg, Chandra Shekhar Azad Complex via Vijay Sthambha Square till Rameshver Gupta's (Royal Plywood) house.

Moulana Azad Marg Nirmal Maganlal Rawal's House No. 01 to Hiralal Mavji Patidar's House No. 25

Kanti Kumar Jain's house No. 26/1 to Yuvraj Khemchand Jain's House no. 41

All Bhairav Nagar, Krishanhari Maganlal Bhawsar's house to Harinarayan Modi's House, Bhairav Nagar.

Annapurna Colony, Narendra Sukhdev Bhawsar's House No. 41/1 to Mahesh Babulal Rathore's House Both side all Annapurna colony and Krishi Upaj Mandi, Sai Mandir, New Krishi Upaj Mandi and All Burhani Colony till Nala.

Ward No. 14 : Gayatri Ward

North : Marketing Co-operative Society.

South : Gayatri Colony, Jobat Project Colony, Avni Nagar, T.V. relay centre, Shankar Temple, Azad Colony & up to Tehasil O.H.T.

East : Bus Station, Atal Adwani Complex, Talab Faliya, Gayatri Temple.

West : Irrigation division office residences.

Description

Govt. Collage forward Town Boundary at Dhar Chikhalda Marg, via Taheri Manjil, all building os west site of Khandwa Baroda State Highway, Bank of Baroda, Gayatri Mandir, Bus Stand to Narayan Purshottam Gadiwala's House No. 121 at Vijay Sthambha Square.

Gayatri Colony, Chhaya Ashok Agrawal's House till Manoj Dube's House Via Omprakash Nawal's Colony, New colony M.P.E.B. and all building of New Colony, Mukam singh Kirade's House to Madhya Pradesh Gramin Sadak Vikash Pardhikarn Office and Kamal Agrawal's House, all Gayatri Colony's building, all Avani Nagar, Jobat Pariyojana Colony, Ganesh mandir Sinchai Colony, Shani Mandir, Nilkhantha Mahadev Mandir, Durdarshan Tower, all Azad colony to water tank opposite Tehsil Office, and all houses near water tank.

Talab Faliya Behind Bus Stand, Kesharsingh Tersingh's House No. 19 to all Talab Faliya's House and Gayatri Tank.

Ward No. 15 : Dak Bungalow Ward

North : Boundary Of Ward No. 01 Laxmi Colony up to Nalla.

South : Southern strip of Khandwa-Baroda S.H.Way, Court premises, Veterinary hospital, Community health Centre, Hostel.

East : S.D.O. P.W.D. Office.

West: Jatti Falya, Tehsil office ,gas godown, Nagar Parishad Sumpwell and Sanan Cotton .

Description

Pariyojana Prashasak Awas to Tehsil Office, Gas Godown, Sanan Cotton, Dhanratna Vihar Colony's all house.

Mahesh Nandkishore Mistri's House No. 01 to Boy's hostel, hospital and quarters, Court, Hira and Sans, Indian Petrol pump continues up to N.P. Boundary.

Jati Faliya via near Kailash Timbar Ara Machine's house to Daru Godown and Rohit Kanti Kumar Jain's house to Ashok Gangaram Sugandhi's House to House No. 166.

Koli Mohall's all building and house, all building behind Dak bangala and All quarter behind Janpad Office.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SRIMAN SHUKLA, Collector.

धार, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 2091-जि.श.वि.अ.-2017.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर, जिला धार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नगर परिषद् धरमपुरी, जिला धार के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :-

:-अनुसूची:-

वार्ड कं.	वार्ड का नाम	वार्ड कं.	वार्ड का नाम
1.	वार्ड कं. 01 संगम वार्ड	9.	वार्ड कं. 09 तिलक वार्ड
2.	वार्ड कं. 02 गांधी वार्ड	10.	वार्ड कं. 10 शीतला माता वार्ड
3.	वार्ड कं. 03 आजाद वार्ड	11.	वार्ड कं. 11 डॉ. मुखर्जी वार्ड
4.	वार्ड कं. 04 शहीद भगतसिंह वार्ड	12.	वार्ड कं. 12 लक्ष्मीबाई वार्ड
5.	वार्ड कं. 05 सरदार पटेल वार्ड	13.	वार्ड कं. 13 इन्दिरा वार्ड
6.	वार्ड कं. 06 डॉ. अम्बेडकर वार्ड	14.	वार्ड कं. 14 नेताजी वार्ड
7.	वार्ड कं. 07 जवाहर वार्ड	15.	वार्ड कं. 15 शास्त्री वार्ड
8.	वार्ड कं. 08 नर्मदा वार्ड		

(वार्डों की चतुर्सीमा)**वार्ड क्रमांक - 1 संगम वार्ड**

- उत्तर :- खुज नदी से रामधाम आश्रम तक
 दक्षिण :- महाराणा प्रताप मार्ग नगर परिषद सीमा से भुवानी माता मंदिर होते हुए कुब्जा संगम
 पूर्व :- रामधाम आश्रम से कुब्जा संगम तक
 पश्चिम :- ग्राम शाहपुरा की सीमा

वार्ड क्रमांक - 2 गांधी वार्ड

- उत्तर :- खुज नदी आजाद मार्ग होते हुए अशरफ-अकलीम के मकान तक
 दक्षिण :- ईदगाह आजाद मार्ग से इनायत-गोडू के मकान तक
 पूर्व :- नगर परिषद सीमा से जगन्नाथ के मकान से होते हुए नेताजी मार्ग श्री अकबर खों के मकान तक
 पश्चिम :- खुज नदी नगर परिषद सीमा से होते हुए आजाद मार्ग जगन्नाथ के मकान तक

वार्ड क्रमांक - 3 आजाद वार्ड

- उत्तर :- नगर परिषद सीमा से होते हुए आजाद मार्ग गली नं. 6 के अंत तक
 दक्षिण :- आजाद मार्ग श्री सलीम खों-अमीर खों के मकान क्र. 109 आजाद मार्ग से श्री काले खों तार मो. के मकान तक
 पूर्व :- आजाद मार्ग गली नं. 8 के अंत खुज से आजाद मार्ग श्री बाबु खों-हबीब खों के मकान तक
 पश्चिम :- आजाद मार्ग काले खों - तार मो. के मकान से नगर परिषद सीमा तक

वार्ड क्रमांक - 4 शहीद भगतसिंह वार्ड

- उत्तर :- नगर परिषद सीमा तारापुर मार्ग सरदार खों के मकान से आजाद मार्ग कपड़ा ऐसोसिएशन के मकान तक
 दक्षिण :- सरदार खों के मकान से कदीर खों के मकान तक
 पूर्व :- आजाद मार्ग कपड़ा ऐसोसिएशन के मकान से जब्बार खों के मकान तक
 पश्चिम :- कदीर खों के मकान से जब्बार खों के मकान तक

वार्ड क्रमांक - 5 सरदार पटेल वार्ड

- उत्तर :- खुज नदी नगर परिषद सीमा से कब्रस्तान होते हुए भारत कुमार महाजन के मकान तक
 दक्षिण :- आजाद मार्ग गजराजसिंह-रतनसिंह के मकान से पप्पुसिंह के मकान तक
 पूर्व :- भारत कुमार महाजन के मकान से कैलाश पाल के मकान तक
 पश्चिम :- तारापुर मार्ग महावीर जैन के मकान से होते हुए खुज नदी नगर परिषद सीमा तक

वार्ड क्रमांक - 6 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर :- आजाद मार्ग नगर परिषद क्वार्टर से खलघाट रोड़ नगर परिषद सीमा तक
 दक्षिण :- शा.क.उ.मा.वि. से बड़ी जीन होते हुए नगर परिषद सीमा तक
 पूर्व :- नगर परिषद सीमा से खुज नदी के मध्य तक
 पश्चिम :- शा.क.उ.मा.वि. से टेलीफोन एक्सचेंज के ऑफिस तक

वार्ड क्रमांक - 7 जवाहर वार्ड

- उत्तर :- जवाहर मार्ग के भवन क्र. 1 से भारतसिंह उमरावसिंह के मकान से पड़ावा होते हुए सरदार पटेल मार्ग तक
- दक्षिण :- जवाहर मार्ग भवन क्र. 18 श्री आबिद हुसैन अब्दुल रहमान के मकान से जवाहर मार्ग गली नं. 2 होते हुए तिलक मार्ग मेहमुद खों के मकान तक
- पूर्व :- सरदार पटेल मार्ग से तिलक मार्ग के भवन क्र. 14 श्री मेहमुद खों के मकान तक
- पश्चिम :- जवाहर मार्ग समद खों के मकान से जवाहर मार्ग भारतसिंह के मकान तक

वार्ड क्रमांक - 8 नर्मदा वार्ड

- उत्तर :- सरदार पटेल मार्ग कदीर खों रमजान खों के मकान से नगर परिषद सीमा तक
- दक्षिण :- नर्मदा मार्ग के भवन क्र. 36 से युनुस खों गनी मो. के मकान से पक्के दरवाजा होते हुए नर्मदा-नदी नगर परिषद सीमा तक
- पूर्व :- बड़ी जीन नगर परिषद सीमा से नर्मदा-नदी नगर परिषद सीमा तक
- पश्चिम :- नर्मदा मार्ग श्री युनुस खों गनी मो. के मकान से सरदार पटेल मार्ग कदीर खों-रमजान खों के मकान तक

वार्ड क्रमांक - 9 तिलक वार्ड

- उत्तर :- जवाहर मार्ग श्री विक्रम वर्मा के मकान से गिरदावर ऑफिस तक
- दक्षिण :- जवाहर मार्ग गिरदावर ऑफिस से तिलक मार्ग श्री ओमप्रकाश शर्मा के मकान तक
- पूर्व :- तिलक मार्ग श्री ओमप्रकाश शर्मा के मकान से जवाहर मार्ग श्री विजयसिंह वर्मा के मकान तक
- पश्चिम :- जवाहर मार्ग गणपति मंदिर से पुरानी तहसील तक

वार्ड क्रमांक - 10 शीतलामाता वार्ड

- उत्तर :- डॉ. मुखर्जी मार्ग श्री मुस्तकीम खों सत्तार खों के मकान से नर्मदा मार्ग पक्के दरवाजे तक
- दक्षिण :- शीतलामाता मंदिर नगर परिषद सीमा से काली मस्जिद नगर परिषद सीमा तक
- पूर्व :- काली मस्जिद से नर्मदा मार्ग श्री शब्बीर खों-समद खों के मकान तक
- पश्चिम :- शीतलामाता नगर परिषद सीमा से डॉ. मुखर्जी मार्ग श्री मुस्तकीम सत्तार खों के मकान तक

वार्ड क्रमांक - 11 डॉ. मुखर्जी वार्ड

- उत्तर :- कहार मोहल्ला गेट से डॉ. मुखर्जी मार्ग के मकान सम्मिलित करते हुए डॉ. मुखर्जी मार्ग गली नं. 1 तक
- दक्षिण :- कुब्जा संगम नगर परिषद सीमा से शीतलामाता मंदिर नगर परिषद सीमा तक
- पूर्व :- डॉ. मुखर्जी मार्ग गली नं. 1 से शीतलामाता मंदिर नगर परिषद सीमा तक
- पश्चिम :- कुब्जा संगम नगर परिषद सीमा से कहार मोहल्ला गेट तक

वार्ड क्रमांक - 12 लक्ष्मीबाई वार्ड

- उत्तर :- आजाद मार्ग भवन क्र. 79 श्रीमति खातुनबाई अब्दुल रहमान के मकान से आजाद मार्ग भवन क्र. 56 न्याज मो. गुल्लु के मकान तक
- दक्षिण :- ओ.के. प्रधान मार्ग हनुमान मंदिर से बोहरा मस्जिद से होते हुए जवाहर मार्ग के भवन क्र. 54 श्री सैफुद्दीन के मकान तक
- पूर्व :- आजाद मार्ग भवन क्र. 56 श्री न्याज मो. गुल्लु खों के मकान से आजाद मार्ग गली नं. 1 बोहरा मस्जिद लक्ष्मीबाई मार्ग, जवाहर मार्ग, मकान नं. 60 को लेते हुए जवाहर मार्ग के भवन क्र. 54 श्री सैफुद्दीन युसुफ अली के मकान तक
- पश्चिम :- ओ.के. प्रधान मार्ग हनुमान मंदिर से आजाद मार्ग भवन क्र. 79 श्रीमति खातुन बी अब्दुल रहमान के मकान तक

वार्ड क्रमांक - 13 इंदिरा वार्ड

- उत्तर :- आजाद मार्ग के मकान नं. 80 श्री मुश्ताक अली लतीफ शाह के मकान से आजाद मार्ग के मकान नं. 70 श्रीमति मंजुरन बी सकीर खों के मकान तक
- दक्षिण :- नेताजी मार्ग श्री राधेश्याम बाबुलाल के मकान से नेताजी मार्ग श्रीमति भागवन्तीबाई मांगीलाल के मकान तक
- पूर्व :- आजाद मार्ग मकान नं. 70 श्रीमति मंजुरन बी सकीर खों के मकान से नेताजी मकान नं. 122 श्रीमति भागवन्तीबाई मांगीलाल के मकान तक
- पश्चिम :- नेताजी मार्ग के मकान नं. 88 राधेश्याम-बाबुलाल के मकान से आजाद मार्ग मकान नं. 80 श्रीमति मुस्ताक अली - लतीफ शाह के मकान तक

वार्ड क्रमांक - 14 नेताजी वार्ड

- उत्तर :- नेताजी मार्ग के मकान नं. 28 श्री राजेन्द्र रतनलाल के मकान से हनुमान मंदिर होते हुए नेताजी मार्ग के मकान नं. 5 श्री महेश गुलाबचंद के मकान तक
- दक्षिण :- कहार मोहल्ला गेट से नेताजी मार्ग गली नं. 4 एवं 3 के मकानों को सम्मिलित करते हुए डॉ. मुखर्जी मार्ग राम मंदिर तक
- पूर्व :- डॉ. मुखर्जी मार्ग राम मंदिर नेताजी मार्ग के मकान नं. 5 से महेश गुलाबचंद के मकान तक
- पश्चिम :- कहार मोहल्ला गेट से नेताजी मार्ग गली नं. 4 से होते हुए नेताजी मार्ग के मकान नं. 28 श्री राजेन्द्र रतनलाल के मकान तक

वार्ड क्रमांक - 15 शास्त्री वार्ड

- उत्तर :- आजाद मार्ग के मकान नं. 98 संतोष बाबुलाल के मकान से आजाद मार्ग के मकान नं. 91 श्री अशोक रतनलाल के मकान तक
- दक्षिण :- खुज नदी राम मंदिर से खुज नदी बजरंग मंदिर होते हुए गली नं. 4 नेताजी मार्ग नारायण बंशीलाल के मकान तक
- पूर्व :- नेताजी मार्ग के मकान नं. 28 नारायण बंशीलाल के मकान से आजाद मार्ग के मकान नं. 91 श्री अशोक - रतनलाल के मकान तक
- पश्चिम :- खुज नदी राम मंदिर से नेताजी मार्ग होते हुए आजाद मार्ग के मकान नं. 98 श्री ताराचंद बाबूलाल के मकान तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

धार, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 2092-परिसीमन-धार-2017.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2091-परिसीमन-धार-2017, दिनांक 13 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

Bhopal, the 13th February 2017

No. 2091.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Parishad Dharampuri as per Schedule given below :—

SCHEDULE

Serial no. of wards and their names:

Ward No.	Name of ward	Ward No.	Name of ward
1.	SANGAM WARD	9.	TILAK WARD
2.	GANDHI WARD	10.	SHITALA MATA WARD
3.	AZAD WARD	11.	DR. MUKHARJI WARD
4.	SHAHID BHAGAT SINGH WARD	12.	LAXMI BAI WARD
5.	SARDAR PATEL WARD	13.	INDIRA WARD
6.	DR. AMBEDAKAR WARD	14.	NETAJI WARD
7.	JAWAHAR WARD	15.	SHASHTRI WARD
8.	NARMADA WARD		

WARD NO. - 1 SANGAM WARD

North - From Khuj River up to Ram Dham Asram

South - From maharana pratap Marg Municipality Boundary towards Bhawani Mata Mandir up to Khubja Sangam

East - Ram Mandir Khuj River up to Khubja Point.

West- Boundary of Shahpura Village.

WARD NO. 2 GANDHI WARD

North - From khuj river upto Asharaf Akilim house.

South - From Eidghaha Azad Marg up to Inayat Goundu House.

East - From Municipality boundary to jagannath house up to akbar kha netaji marg.

West- From Khuj river to ward municipality boundary up to Jagannath house no. 99 Azad marg.

WARD NO. 3 AZAD WARD

North - From municipality Boundary to ward Azad marg up to Khuj river Gali no. 6

South - From Azad marg salim khan- Amir khan house no. 109 up to kale khan tar mohmmad house azad marg.

East - From Azad marg and of khuj river Gali no. 6 up to Azad marg babu khan. Habib khan house

West- From Azad marg Kale Kha- Tar Mohmmad house up to Municipality Boundary

WARD NO. 4 SHAHID BHAGAT SINGH WARD

North - From Tarapur Marg sardar Khan House up to Cloth Association House

South - From House to sardar Khan up to Kadir Khan House

East - From Azad Marg to Cloth Association house up to Jabbar house.

West- From House of Kadir Khan up to Jabbar Khan house

WARD NO. 5 SARDAR PATEL WARD

- North - From khuj River Municipality boundary to kabrastan to ward Bharat Kumar Mahajan house up to Municipality boundary
- South - From Azad marg GajarajSingh-Ratansingh house up to Pappu Singh house
- East - From Bharat Kumar Mahajan house up to Kailash Pal House.
- West- From Mahaveer Jain house up to khuj river municipality boundary

WARD NO. 6 DR. AMBEDAKAR WARD

- North - From Azad Marg Municipality Quarter up to Khalghat Road Municipality Boundary
- South - From Govt. Girl's Higher secondary School up to Badi Jin Municipality Boundary
- East - Form Municipality Boundary up to middle of khuj river
- West- From Govt. Girl's Higher secondary School up to Telephone Exchange Office

WARD NO. 7 JAWAHAR WARD

- North - From Jawahar Marg Bharat Singh house no 1 toward Chouk up to Sardar Patel Marg.
- South - From Jawahar marg Abid Husain Abdul Rahman House. House no 182 Jawahar marg gali no. 2 toward Tilak marg up to mehmud khan house no. 14
- East - From Sardar Patel Marg up to Sabbir Khan Mehmud Khan House No. 14 Tilak Marg
- West- From Jawahar Marg Samad Khan House No. 18 up to Bharat Singh House Jawahar Marg.

WARD NO. 8 NARMADA WARD

- North - Form Sardar Patel Marg up to Kadir Khan-Ramjan Khan up to Municipality Boundary
- South From Narmada marg Old Door toward Narmada River up to municipality boundary
- East - From Big Factory Municipality boundary up to Narmada river up to municipality boundary
- West- Form Narmada Marg Yunus Khan-Gani Khan House to Sardar Patel Marg up to Kadir Khan-Ramzan Khan House.

WARD NO. 9 TILAK WARD

- North - From Jawahar Marg Vikram Varma House up to Girdhawar Office
- South From Jawahar Marg Girdhawar Office up to Tilak Marg Omprakash Sharma house.
- East - Form Tilak Marg Omprakash Sharma house up to Jawahar Marg Vijaysingh Varma House
- West- From Jawahar Marg Ganpati Mandir up to Old Tehsil

WARD NO. 10 SHITALA MATA WARD

- North - Form Dr. Mukharji Marg Mustakim Khan -Sattar Khan up to Narmada Marg Old Get
- South Form Shitalamata Municipality boundary up to Kali Masjid Municipality Boundary
- East - Form Kali Masjid up to Narmada Marg Shabbir Khan-Samad Khan house.
- West- From Shitalamata Municipality boundary to Dr. Mukharji Marg Mustakim Khan-Sattar Khan House

WARD NO. 11 DR. MUKHARJI WARD

- North - Form Kahar Mohalla Gate including Mukharji Marg house up to Dr. Mukharji Marg Gali no. 1
- South - From Khubja Point Municipality Boundary up to Shitalamata Mandir municipality boundary
- East - Form Dr. Mukharji Marg. Gali no. 1 up to Shitalamata Mandir Municipality boundary
- West - Form Khubja point municipality boundary up to kahar mohalla Gate.

WARD NO. 12 LAXMI BAI WARD

- North - Form Khatun Bai-Abdul Rahman House no. 69 Azad Marg up to Niyaj Mohmmad Gullu Khan house no.56
- South - Form O.K Pradhan Marg Hanuman Mandir toward Bohra Masjid up to Saifuddin house no. 54 of jawahar marg
- East - Form Azad Marg house no. 56 Niyaz Mohmmad-Gullu Khan house to Azad marg Gali No. 1 Bohra Masjid, Laxmi Bai marg including Jawahar marg house no. 60 up to Saifudding Yusuf Ali house No. 54
- West - From O.K Pradhan Marg Hanuman Mandir up to Khatun Bai-Abdul Rahman House no. 59 of Azad Marg

WARD NO. 13 INDIRA WARD

- North - From Azad marg Mustak Ali-Latif Shaha house no. 80 up to Manjuran Bai Shakir Khan House no. 70 of Azad Marg
- South - Form Netaji Marg Radheshayam Babulal House up to Bhagwanti Bai Mangilal house Netaji Marg.
- East - Form Azad Marg Manjuran Bai-Shakir Khan House no. 70 up to Bhagwanti bai Mangilal House no. 122 Netaji Marg
- West - Form Netaji Marg. Radheshyam Babulal House no. 88 up to Mustak Ali Latif Shah House No. 80 Azad Marg.

WARD NO. 14 NETAJI WARD

- North - From Netaji Marg Rajendra Ratanlal House No. 28 toward Hanuman Mandir up to Mahesh Gulabchand House No. 5 of Netaji Marg
- South - Form Kahar Mohalla Gate to including Netaji Marg Gali No. 4 and 3 up to Dr. Mukharji Marg. Ram Mandir
- East - Dr. Mukharji Marg Ram Mandir up to Mahesh Gulabchand House No. 5 Netaji Marg
- West- Form Kahar Mohalla Gate No. Netaji Marg Gali No. 4 toward Netaji Marg Rajendra-Ratanlal House No. 28 Netaji Marg

WARD NO. 15 SHASHTRI WARD

- North - Form Azad Marg Santosh Babulal Karma house No. 98 up to Ashok Ratanlal House No. 91 Azad Marg
- South - Form Khuj River Ram Mandir to Khuj River Bajarang Mandir toward Gali No. 4 of Netaji Marg up to Narayan Banshilal House No. 28 of Netaji Marg
- East - From Netaji marg up to Narayan-Banshilal house no. 28 up to Ashok Ratan lal house No. 91 of Azad marg
- West- Form Khuj river Ram Mandir to Netaji Marg toward Azad Marg up to Tarachand-Babulal House No. 98

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SRIMAN SHUKLA, Collector.